

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 11—नवम्बर 17, 2017 (कार्तिक 20, 1939)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 11—NOVEMBER 17, 2017 (KARTIKA 20, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2017

रक्षा (एम एस)

सं. 239, दिनांक 3 अक्टूबर 2017—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 25 जुलाई 2017 से निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

प्रधान अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

आईसी-35471एम जनरल बिपिन रावत, उ.यु.से.मे., अ.वि.से.मे., यु.से.मे., से.मे., वि.से.मे., पैदल सेना

अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

कवचित कोर

आईसी-35602एम ले.जन. ए बी शिवाने, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे., कवचित कोर

पैदल सेना

आईसी- 35173डब्ल्यू ले. जन. आर जे नोरोन्हा, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., से.मे., पैदल सेना

आईसी-35137एल ले. जन. पी एम हारिज़, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., से.मे., वि.से.मे., यांत्रिक पैदल सेना

तोपखाना/सेना वायु रक्षा कोर

आईसी-35929एल ले. जन. विनोद वशिष्ठ, अ.वि.से.मे., वि.से.मे., तोपखाना

अभियांत्रिक/संकेतक

आईसी-39846एक्स ले. जन. ए आर प्रसाद, अ.वि.से.मे., वि.से.मे., संकेतक

सेना सेवा कोर/सेना आयुद्ध कोर/ईएमई

आईसी-35796ए ले. जन. कंवल जीत सिंह गिल, अ.वि.से.मे., वि.से.मे., ईएमई

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 सितम्बर 2017 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

पैदल सेना

आईसी-35479वाई ले.जन. बी एस नेगी, उ.यु.से.मे., यु.से.मे., से.मे., वि.से.मे. पैदल सेना

आईसी-35173डब्ल्यू ले.जन. आर जे नोरोन्हा प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे. से.मे. (सेवानिवृत्त), पैदल सेना के स्थान पर

सेना सेवा कोर/सेना आयुद्ध कोर/ईएमई

आईसी-39464एन ले.जन. एम एच ठाकुर वि.से.मे., सेना सेवा कोर

आईसी-35796ए ले.जन. कंवल जीत सिंह गिल, अ.वि.से.मे., वि.से.मे., (सेवानिवृत्त), ईएमई के स्थान पर

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 25 जुलाई 2017 से निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

प्रधान अवैतनिक (वायुसेना) ए.डी.सी.

एयर मार्शल बी. एस. धनोआ, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., यु.से.मे., वा.मे. (15405) एफ(पी)

अवैतनिक (वायुसेना) ए.डी.सी.

एयर मार्शल एस. बी. देव, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., वा.मे., वि.से.मे. (15681) एफ(पी)

एयर मार्शल आर. के. धीर, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., वा.मे. (15678) एफ(पी)

एयर मार्शल जे. वालिया, प.वि.से.मे., वा.मे., वि.से.मे. (15684) एफ(पी)

एयर मार्शल सी. हरि कुमार, अ.वि.से.मे., वा.मे., वा.से.मे. (15881) एफ(पी)

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 25 जुलाई 2017 से निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

प्रधान अवैतनिक नौसेना ए.डी.सी.

एडमिरल सुनील लान्बा, पीवीएसएम, एवीएसएम (01823 टी)

अवैतनिक नौसेना ए.डी.सी.

वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (02011डब्ल्यू)

वाइस एडमिरल एच सी एस बिष्ट, पीवीएसएम, एवीएसएम (02035ज़ेड)

रेवती रमन
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 240, दिनांक 4 अक्टूबर 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं ।

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
सेना चिकित्सा कोर

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के पद पर

एस दास (एमआर-06456पी)	—	15-02-17, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-16 से दी जाती है ।
--------------------------	---	---

ले कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

सी एम सिंह, वीएसएम (एमआर-06317एल)	—	11-04-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-01-12 से दी जाती है ।
सानिल मोहन (एमआर-06318एन)	—	11-04-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-02-12 से दी जाती है ।
अमित सक्सेना (एमआर-06328एक्स)	—	30-04-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-02-12 से दी जाती है ।
ए घई (एमआर-06329ए)	—	02-07-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-02-12 से दी जाती है ।
एस अनायथ (एमआर-06335एन)	—	28-05-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-02-12 से दी जाती है ।
अनुपम अग्रवाल (एमआर-06341एफ)	—	10-05-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-02-12 से दी जाती है ।
सुमित कुमार (एमआर-06334एल)	—	30-04-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-03-12 से दी जाती है ।
(आयु.) शैलजा काकरी (एमआर-06607एच)	—	11-06-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-04-12 से दी जाती है ।
वी के पात्रा (एमआर-06727एफ)	—	12-04-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-04-12 से दी जाती है ।
आर के नायर (एमआर-06345एक्स)	—	19-06-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-04-12 से दी जाती है ।
बी हरिकृष्णन (एमआर-06358पी)	—	07-07-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-05-12 से दी जाती है ।
एस के वर्मा (एमआर-06362एक्स)	—	07-07-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-05-12 से दी जाती है ।
संजीवन शर्मा (एमआर-06366एन)	—	07-07-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-05-12 से दी जाती है ।
एस के मौर्या (एमआर-06370डब्ल्यू)	—	07-07-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 10-05-12 से दी जाती है ।
आर एन वर्मा (एमआर-06372एफ)	—	18-07-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-12 से दी जाती है ।
संजय शर्मा (एमआर-06373के)	—	07-07-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-06-12 से दी जाती है ।

एन गोवर (एमआर-06375पी)	—	06-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25-06-12 से दी जाती है ।
जी सी गुलाटी (एमआर-06377ए)	—	03-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-07-12 से दी जाती है ।
वी सी आर मटूरी (एमआर-06376एक्स)	—	14-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-07-12 से दी जाती है ।
ए के मिश्रा (एमआर-06378एच)	—	22-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-07-12 से दी जाती है ।
बारुन दत्ता (एमआर-06382एल)	—	06-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-07-12 से दी जाती है ।
विशाल (एमआर-06385वाई)	—	06-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-07-12 से दी जाती है ।
एच एस देयोल (एमआर-06388एम)	—	28-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-07-12 से दी जाती है ।
के आई एस बरार (एमआर-06389पी)	—	16-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-07-12 से दी जाती है ।
पीजूश जायसवाल (एमआर-06588एच)	—	09-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-12 से दी जाती है ।
संजय सिंह (एमआर-06590ए)	—	11-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-08-12 से दी जाती है ।
एस घोष (एमआर-07046एल)	—	08-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-08-12 से दी जाती है ।
(श्रीमती) पी नांबियार (एमआर-07197के)	—	06-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-08-12 से दी जाती है ।
(श्रीमती) एस बडवाल (एमआर-06808एफ)	—	09-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-08-12 से दी जाती है ।
एम पी करियप्पा (एमआर-06420डब्ल्यू)	—	28-08-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-08-12 से दी जाती है ।
डी चौधरी (एमआर-06422एफ)	—	25-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 10-08-12 से दी जाती है ।
रमेश चंद्रा (एमआर-06423के)	—	12-11-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11-08-12 से दी जाती है ।
ए टूटेजा (एमआर-06425पी)	—	12-10-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12-08-12 से दी जाती है ।
एल मौदार (एमआर-06430ए)	—	17-10-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 13-08-12 से दी जाती है ।
जे पी एन झा (एमआर-07048डब्ल्यू)	—	08-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 14-08-12 से दी जाती है ।
एस डी सिंह (एमआर-07049वाई)	—	06-10-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-09-12 से दी जाती है ।
जसबिर सिंह (एमआर-06591एच)	—	23-10-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-09-12 से दी जाती है ।
वी के भाटी (एमआर-07198एम)	—	11-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-09-12 से दी जाती है ।

शिशिर जैन (एमआर-06480एल)	—	11-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-09-12 से दी जाती है ।
डी जयचंदर (एमआर-07161एल)	—	23-04-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-09-12 से दी जाती है ।
(श्रीमती) जे के भाटिया (एमआर-06509एच)	—	11-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-09-12 से दी जाती है ।
आर के अनादुरे, वीएसएम (एमआर-06517एफ)	—	11-09-12
डी जे शर्मा (एमआर-06518के)	—	17-09-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11-09-12 से दी जाती है ।
अनुज चावला (एमआर-06520एफ)	—	11-09-12
पी गांगुली (एमआर-06522एम)	—	11-09-12
डी मुखर्जी (एमआर-06530एल)	—	01-01-13
जे गंभीर (एमआर-06532डब्ल्यू)	—	01-01-13
ए बनर्जी (एमआर-06534एफ)	—	04-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-01-13 से दी जाती है ।

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 08 अगस्त 2015 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जो की कर्नल पदोन्नति से संबंधित है, जिसका सम्बन्ध उपर्युक्त अधिकारियों से है, उसे रद्द किया जाता है ।

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

एन हाजरा (एमआर-06620एम)	—	08-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 10-01-14 से दी जाती है ।
एम एन रजनी (एमआर-07960एफ)	—	16-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20-05-14 से दी जाती है ।
ए जे पॉल (एमआर-06686एच)	—	30-05-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-14 से दी जाती है ।
एस नवीन (एमआर-06690एल)	—	11-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-14 से दी जाती है ।
एन बंदोपाध्याय (एमआर-07521डब्ल्यू)	—	09-05-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-07-15 से दी जाती है ।
शोभा रानी (एमआर-07601एन)	—	11-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-08-15 से दी जाती है ।
जयंता बोराह (एमआर-07516एल)	—	29-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-10-15 से दी जाती है ।
हकम सिंह (एमआर-07603वाई)	—	01-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-10-15 से दी जाती है ।
एस बंदोपाध्याय (एमआर-06628वाई)	—	24-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-11-15 से दी जाती है ।
एस श्रीवास्तवा (एमआर-07377एम)	—	18-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-11-15 से दी जाती है ।
एस सेनगुप्ता (एमआर-06851एच)	—	12-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-11-15 से दी जाती है ।

एस एम मेन्डोका (एमआर-06857के)	—	18-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-11-15 से दी जाती है ।
एम के तंगडी (एमआर-06859पी)	—	09-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-12-15 से दी जाती है ।
एम के तंग्री (एमआर-06859पी)	—	09-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-12-15 से दी जाती है ।
एस कुमार (एमआर-06861एम)	—	09-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 10-12-15 से दी जाती है ।
आदित्य गुप्ता (एमआर-06863एक्स)	—	13-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-01-16 से दी जाती है ।
अनिरुध सिंह (एमआर-06864ए)	—	08-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-01-16 से दी जाती है ।
आर एम कार्थिक (एमआर-06865एच)	—	11-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12-01-16 से दी जाती है ।
एन जहां (एमआर-06866एल)	—	08-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-02-16 से दी जाती है ।
आर गोपी (एमआर-06871डब्ल्यू)	—	09-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-02-16 से दी जाती है ।
परीक्षित सिंह (एमआर-06873एफ)	—	09-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18-02-16 से दी जाती है ।
मनिष शर्मा (एमआर-06874के)	—	06-06-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25-02-16 से दी जाती है ।
एस आनंद (एमआर-06876पी)	—	27-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 26-02-16 से दी जाती है ।
वी एस ग्रेवाल (एमआर-06878ए)	—	18-05-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-04-16 से दी जाती है ।
आर खन्ना (एमआर-06879एच)	—	17-05-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20-04-16 से दी जाती है ।
पी भाटिया (एमआर-06880एक्स)	—	01-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-16 से दी जाती है ।
पवन शर्मा (एमआर-06886वाई)	—	22-06-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-05-16 से दी जाती है ।
जे एम गोयल (एमआर-06887एफ)	—	21-06-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-05-16 से दी जाती है ।
एस वी एस कृष्णा (एमआर-06888एफ)	—	01-09-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-16 से दी जाती है ।
एस शुक्ला (एमआर-06889एम)	—	15-06-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-06-16 से दी जाती है ।
पी अंगरीश (एमआर-06890एफ)	—	30-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-06-16 से दी जाती है ।
एस किरण (एमआर-06893पी)	—	10-06-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-06-16 से दी जाती है ।
रंजीत कुमार (एमआर-06897एल)	—	10-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-06-16 से दी जाती है ।
एस सोबती (एमआर-06899डब्ल्यू)	—	10-06-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-06-16 से दी जाती है ।
आर आर कोच्चर (एमआर-6900ए)	—	07-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-06-16 से दी जाती है ।

मनप्रीत राय (एमआर-07779के)	—	14-06-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-06-16 से दी जाती है
वी एस चव्हाण (एमआर-06904डब्ल्यू)	—	09-06-16
मनोज कुमार (एमआर-06905वाई)	—	01-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 16-06-16 से दी जाती है
पी के सिंह (एमआर-07769ए)	—	27-06-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20-06-16 से दी जाती है
ए एन अधौलिया (एमआर-07503एन)	—	11-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20-06-16 से दी जाती है
ज्योति जोशी (एमआर-07587एम)	—	11-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 21-06-16 से दी जाती है
राजेश सहगल (एमआर-07667के)	—	08-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 22-06-16 से दी जाती है
वी वी शर्मा, एसएम (एमआर-07770पी)	—	15-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 23-06-16 से दी जाती है
पी के शुक्ला (एमआर-08334के)	—	30-06-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 23-06-16 से दी जाती है
विजय कुमार, एसएम (एमआर-07837एच)	—	14-07-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 23-06-16 से दी जाती है
एम के अमर (एमआर-07940एन)	—	17-09-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25-06-16 से दी जाती है
आर डब्ल्यू अधाउ, एसएम (एमआर-07954एन)	—	07-09-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 27-06-16 से दी जाती है
एच एन वीरेंद्र (एमआर-07498एन)	—	08-09-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 27-06-16 से दी जाती है
अनिदिता बसु (एमआर-07488के)	—	07-09-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18-07-16 से दी जाती है
ए रीता पॉरकोडी (एमआर-07595एल)	—	08-09-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-16 से दी जाती है
अनामिका शर्मा (एमआर-08097एल)	—	07-09-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-08-16 से दी जाती है
आर के गुप्ता (एमआर-06912पी)	—	07-09-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-08-16 से दी जाती है
शर्मिला सिन्हा (एमआर-06914ए)	—	04-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-08-16 से दी जाती है
डी वर्मा (एमआर-06923एफ)	—	13-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-16 से दी जाती है
ए चौधरी (एमआर-06932एच)	—	05-11-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-09-16 से दी जाती है
जे एस रंधावा (एमआर-06933एल)	—	14-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-16 से दी जाती है
ए के शाक्या (एमआर-06934एन)	—	13-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-16 से दी जाती है
एस दासगुप्ता (एमआर-06939एम)	—	15-11-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-10-16 से दी जाती है
डी के सिन्हा (एमआर-06921डब्ल्यू)	—	30-12-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-10-16 से दी जाती है

ए कुशल (एमआर-06928ए)	—	13-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-10-16 से दी जाती है
टी श्रीवास्तवा (एमआर-07941डब्ल्यू)	—	14-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-10-16 से दी जाती है
तनुश्री मुखर्जी (एमआर-07492एम)	—	02-11-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-10-16 से दी जाती है
विपुल दत्त (एमआर-07673एक्स)	—	14-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08-10-16 से दी जाती है
के वेंकटरमण (एमआर-07659एल)	—	17-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 10-10-16 से दी जाती है
एस के शर्मा (एमआर-07942वाई)	—	26-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12-10-16 से दी जाती है
एस गुप्ता (एमआर-07780वाई)	—	14-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 13-10-16 से दी जाती है
एस एस श्रीवास्तवा (एमआर-07611एक्स)	—	02-11-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 13-10-16 से दी जाती है
ए भटनागर (एमआर-07822ए)	—	02-11-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24-10-16 से दी जाती है
एस के पटनायक (एमआर-07669पी)	—	01-11-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24-10-16 से दी जाती है
ज्ञान प्रकाश (एमआर-07674ए)	—	18-11-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25-10-16 से दी जाती है
विवेक अग्रवाल, एसएम (एमआर-07612ए)	—	16-12-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29-10-16 से दी जाती है
संजीव कुमार, एसएम (एमआर-07768एक्स)	—	06-12-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-11-16 से दी जाती है
योगेंद्र यादव (एमआर-08470ए)	—	05-12-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-11-16 से दी जाती है
वी बी शर्मा (एमआर-07683एफ)	—	03-04-17, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 17-11-16 से दी जाती है
एस पी घोडमारे (एमआर-07676एल)	—	12-12-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-12-16 से दी जाती है
मनोहर दत्त (एमआर-07766एम)	—	10-01-17, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-12-16 से दी जाती है
ए एम देशमुख (एमआर-07824एल)	—	11-12-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-12-16 से दी जाती है
के डी सोढी (एमआर-07147वाई)	—	16-09-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-09-10 से दी जाती है ।
बी भूयन (एमआर-06611एल)	—	29-10-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11-09-10 से दी जाती है ।
राजू अग्रवाल (एमआर-06020के)	—	20-10-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15-09-10 से दी जाती है ।
जे एस भाटिया (एमआर-06025एच)	—	22-10-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15-09-10 से दी जाती है ।
एम एस गिल (एमआर-06028डब्ल्यू)	—	20-10-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25-09-10 से दी जाती है ।
ए जी माथुर (एमआर-06027एन)	—	20-10-10, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-10-10 से दी जाती है ।

समीर कुमार (एमआर-06169एल)	—	27-05-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-11 से दी जाती है।
एस राधाकृष्णन (एमआर-06707एल)	—	01-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-05-11 से दी जाती है।
एस सुरेश कुमार, वीएसएम (एमआर-06225वाई)	—	27-05-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-05-11 से दी जाती है।
एम चैटर्जी (एमआर-06226एफ)	—	20-06-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 17-05-11 से दी जाती है।
ए के घोष (एमआर-06227के)	—	27-05-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 22-05-11 से दी जाती है।
सौरव सेन (एमआर-06229पी)	—	11-09-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-11 से दी जाती है।
डी मुखर्जी (एमआर-06230के)	—	05-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24-06-11 से दी जाती है।
पी देब (एमआर-06233एक्स)	—	05-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24-06-11 से दी जाती है।
आलोक सेन (एमआर-06236एल)	—	14-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 27-06-11 से दी जाती है।
वाई एस सिरोही (एमआर-06240एन)	—	25-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-07-11 से दी जाती है।
आर प्रक्षेत्रा (एमआर-06243एफ)	—	19-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-07-11 से दी जाती है।
यशपाल सिंह (एमआर-06244के)	—	23-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19-07-11 से दी जाती है।
आलोक भल्ला (एमआर-06245एम)	—	19-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-11 से दी जाती है।
ए चंद्रा (एमआर-06247एक्स)	—	29-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-11 से दी जाती है।
आर रामप्रसाद (एमआर-06249एच)	—	19-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-11 से दी जाती है।
राकेश वर्मा (एमआर-06250एक्स)	—	23-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-08-11 से दी जाती है।
एम ए परवाज (एमआर-06251ए)	—	27-09-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-08-11 से दी जाती है।
आनंद मिश्रा (एमआर-06257एफ)	—	05-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-08-11 से दी जाती है।
जसविंदर सिंह (एमआर-06256वाई)	—	19-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11-08-11 से दी जाती है।
अमूल कपूर (एमआर-06258के)	—	09-09-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 16-08-11 से दी जाती है।
रजत जगानी (एमआर-06259एम)	—	19-08-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19-08-11 से दी जाती है।
सुकृति बावेजा (एमआर-06260एफ)	—	01-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 23-08-11 से दी जाती है।
पंकज तलवार, वीएसएम (एमआर-06262एम)	—	28-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29-08-11 से दी जाती है।
आर नायर (एमआर-06265ए)	—	11-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-11 से दी जाती है।

एस मानसिंह (एमआर-06269डब्ल्यू)	—	01-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-11 से दी जाती है।
एस भल्ला (एमआर-06273वाई)	—	02-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-11 से दी जाती है।
एस के रोडे (एमआर-06280पी)	—	01-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-09-11 से दी जाती है।
एन एस छाबडा (एमआर-06283एच)	—	13-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12-09-11 से दी जाती है।
के मोहना (एमआर-06722एच)	—	05-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-11 से दी जाती है।
पंकज शर्मा (एमआर-06274एफ)	—	17-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-11 से दी जाती है।
विजयाकुमार आर (एमआर-07220एम)	—	05-03-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18-10-11 से दी जाती है।
एस नस्कर (एमआर-07044ए)	—	26-11-11, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19-10-11 से दी जाती है।
एस दास (एमआर-06724एन)	—	17-02-12, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12-12-11 से दी जाती है।

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 08 अगस्त 2015 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जो की कर्नल पदोन्नति से संबंधित है, जिसका सम्बन्ध उपर्युक्त अधिकारियों से है, उसे रद्द किया जाता है।

विंग कमांडर (व समकक्ष) से ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

ए गुप्ता (एमआर-06675डब्ल्यू)(एएफ-23430-आर)	—	13-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-11-15 से दी जाती है।
मोना दहिया (एमआर-06741एन) (एएफ-23416-जी)	—	12-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-11-15 से दी जाती है।
अंशुमान दत्ता (एमआर-06766ए)(एएफ-23456-एच)	—	13-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-11-15 से दी जाती है।
अंजलि गौतम (एमआर-07663एन)(एएफ-24465-टी)	—	20-06-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-06-16 से दी जाती है।
के गणेश (एमआर-06917एन)(एएफ-33686-के)	—	03-10-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12-08-16 से दी जाती है।
डी शालीमठ (एमआर-07789एन)(एएफ-35343-एन)	—	01-11-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20-10-16 से दी जाती है।

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (कालमान) के पद पर

एमआर-06414एच(एएफ-20961-एफ)	विंग कमांडर	बी के गुप्ता	01 जून 2017
----------------------------	-------------	--------------	-------------

सर्ज कमांडर से सर्जन कैप्टन (कालमान) के पद पर

एमआर-07057एक्स (75547-वाई)	सर्ज कमांडर	सी वी एस एन राव	30 जून 2017
एमआर-06418वाई (75533-आर)	सर्ज कमांडर	एस जी स्वामी	01 जून 2017

बी श्रीधर
ब्रिगेडियर
उपमहानिदेशक स.से.चि.से. (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 241, दिनांक 5 अक्टूबर 2017—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :—

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
ले. से कप्तान

आई सी संख्या	नाम	आर्म
80179	अजय कुमार पाठक	इन्फैन्ट्री
80180	आशीष कपूर	एसी
80181	नवीन जानू	इन्फैन्ट्री
80182	इशान शिंघल	आर्टी
80183	साकेत कुमार	एसी
80184	भेष बहादुर रोका	आर्टी
80185	रोहित पी नायर	इन्फैन्ट्री
80186	सूर्य प्रकाश	इन्फैन्ट्री
80187	सचिन यादव	इन्जिनियर्स
80188	एलन जॉय डैनियल	आर्टी
80189	रुद्रेश पाण्डे	इन्फैन्ट्री
80190	दीपक कुमार	एएडी
80191	बिदेसी पोलाई	ईएमई
80192	स्वप्निल श्रीवास्तव	इन्फैन्ट्री
80193	सुनील यादव	आर्टी
80194	गुरप्रीत सिंह मुल्तानी	एएससी
80195	एम कार्तिक रेड्डी	एवीएन
80196	आदित्य उडुपा	एएससी
80197	मुकेश कुमार	आर्टी
80198	उन्नी मोहन	मैक इन्फैन्ट्री
80199	अक्षत दुबे	मैक इन्फैन्ट्री
80200	शोभन साहा	सिग्नल्स
80201	ए रंजीत कुमार	इन्फैन्ट्री
80202	संजय सिंह जामवाल	एएडी
80203	दीपक कुमार राघव	आर्टी
80204	जय सिंह सुलोदिया	इन्फैन्ट्री
80205	मुकेश कुमार गुप्ता	इन्जिनियर्स
80206	निलेश भास्कर	एओसी
80207	आशीष श्योरन	इन्फैन्ट्री
80208	प्रशांत सिंह	आर्टी
80209	विवेक यादव	इन्फैन्ट्री
80210	नीतीश कुमार झा	एसी
80211	अभिषेक यादव	एएडी
80212	डोंका प्रवीण	ईएमई
80213	डाके भरत बन्सी	आर्टी
80214	अमित दिलीप काले	इन्फैन्ट्री
80215	सुरेन्द्र पाल सिंह	आर्टी
80216	संग्राम सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री
80217	अक्षत धामी	आर्टी

80218	श्रवण कुमार सिंह	इंट
80219	अंकित सौरभ	आर्टी
80220	सुनंदित महाजन	एएससी
80221	रोहित गौतम	एओसी
80222	परवेज आलम	इन्फैन्ट्री
80223	संदीप कुमार	सिग्नल्स
80224	नगेन्द्र कुमार	एएससी
80225	विष्णु कुमार शुक्ला	एएडी
80226	अजय कुमार	इन्जिनियर्स
80227	गुरप्रीत सिंह	एओसी
80228	देवान्शु कठैत	इन्फैन्ट्री
80229	अभिलाश पात्रा	मैक इन्फैन्ट्री
80230	के एस क्रान्ति किरन रॉव	इन्फैन्ट्री
80231	राहुल मलिक	आर्टी
80233	सचिन मल्होत्रा	एवीएन
80234	ए अरीहरा सधान	इन्फैन्ट्री
80235	शिव कुमार यादव	आर्टी
80236	शिवम मिश्रा	एसी
80237	आलोक कुमार गुप्ता	इन्फैन्ट्री
80238	अभिनव बिश्नोई	इन्फैन्ट्री
80239	बलराम सिंह खरियाल	इन्फैन्ट्री
80240	काशीदीप यादव	ईएमई
80241	अभिषेक कुमार	एओसी
80242	दीपक जोशी	इन्फैन्ट्री
80243	विजय सिंह	एसी
80244	गौरभ बसेरा	आर्टी
80245	अभिषेक औझा	एएससी
80246	पीयूष आनंद	एवीएन
80247	रोहित सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री
80248	आकाश दीप	एओसी
80249	अंकुर कुमार	इन्फैन्ट्री
80250	अजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
80251	अमित कुमार	मैक इन्फैन्ट्री
80253	विकास परिहार	आर्टी
80254	लिमये निखिल विनायक	इन्फैन्ट्री
80255	बी शिवानन्द	आर्टी
80256	सुशांत गर्ग	इन्फैन्ट्री
80257	टी एच सुरजीत सिंह	एएससी
80258	एम डार्विन विगनेश	एएडी
80259	निखिल कुमार वर्मा	आर्टी
80260	विवेक राणा	एएससी
80261	राकेश सिंह	एसी
80262	ऐश्वर्य शिवहरे	एएडी
80263	विक्रमजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
80264	आदित्य रमन	सिग्नल्स

80265	मुकुल दत्त	आर्टी
80266	हरीश शर्मा	इन्जिनियर्स
80267	रोहन जैन	आर्टी
80268	विनय यादव	इन्जिनियर्स
80269	हिमांशु मिश्रा	इन्फैन्ट्री
80270	विनोद कुमार मिश्रा	एसी
80271	प्रवीण कुमार मथपती	एएससी
80272	विशाल देव	इन्फैन्ट्री
80273	सूर्य दहिया	इन्जिनियर्स
80274	शुशरूजेन पंगोजम	इन्फैन्ट्री
80275	राकेश कुमार	एओसी
80276	अर्पित कपूर	आर्टी
80277	अभिषेक प्रभात	इन्फैन्ट्री
80278	सत्य प्रकाश त्रिपाठी	एएडी
80279	अंजनी कुमार सिंह	एवीएन
80280	गुरदीप सिंह वजीर	इन्फैन्ट्री
80281	भाटे शौनक रविन्द्र	इन्जिनियर्स
80282	राकेश कुमार स्वाईन	सिग्नल्स
80283	आवेश चौहान	मैक इन्फैन्ट्री
80284	अभिषेक रंजन	आर्टी
80285	नील डेविस	इन्फैन्ट्री
80286	विपुल तिवारी	एएससी
80287	अनुराग सिंह	ईएमई
80288	अक्षय प्रसून	इन्फैन्ट्री
80289	धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया	मैक इन्फैन्ट्री
80290	विकास कुमार	आर्टी
80291	विवेन्द्र प्रताप राठौड़	एएडी
80292	कदम प्रवीण दिलीप	ईएमई
80293	पार्थ जुनेजा	आर्टी
80294	राजेन्द्र सिंह विर्क	एओसी
80295	शिवांक पाठक	इन्फैन्ट्री
80296	चन्दन कुमार राय	आर्टी
80297	वासिफ मजीद टाक	एसी
80298	संदीप बाल	इन्फैन्ट्री
80299	अभिषेक साफिया	इन्फैन्ट्री
80300	राहुल यादव	आर्टी
80301	राहुल शर्मा	एसी
80302	रवि किरण जयसवाल	इन्फैन्ट्री
80303	रोहिन जूडे रॉक	मैक इन्फैन्ट्री
80304	अनुज राजपूत	आर्टी
80305	नवनीत सिंह	एओसी
80306	महेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
80307	प्रदीप कुमार	एएससी
80308	हिमांशु रोहिल्ला	इन्जिनियर्स
80309	विक्रम प्रताप सिंह	ईएमई

80310	मनोहर सिंह	आर्टी
80311	दीपक सिंह	इन्फैन्ट्री
80312	रुशिल देव	सिग्नल्स
80313	अशीष बडोनी	आर्टी
80314	मोहम्मद फजील खान	आर्टी
80315	अमित कुमार	एओसी
80317	सौरभ मिश्रा	आर्टी
80318	नवीन कुमार	इन्फैन्ट्री
80319	रिशु कुमार	इन्फैन्ट्री
80320	लोकेश यादव	एएडी
80321	मिदुन ऐ एस	एएडी
80322	अनुज क्षेत्री	इंट
80323	प्रवेश कुमार	आर्टी
80324	पुष्पेश चन्द महोविया	इन्फैन्ट्री
80325	तुसार शर्मा	एसी
80326	जितिन कुमार	आर्टी
80327	रौनक इरफान	सिग्नल्स
80328	सतीश कुमार	एएससी
80329	रणदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
80330	कुलदीप तिवारी	इन्फैन्ट्री
80331	बेंधी कार्तिक रेड्डी	एवीएन
80332	अंकुर रावत	आर्टी
80333	मनोज कुमार	आर्टी
80334	अपूर्व चटर्जी	एएससी
80336	धनजीत कुमार सिंह	ईएमई
80337	अक्षय गुलेरिया	इन्फैन्ट्री
80338	नवनीत सुमन	एसी
80339	दीपक मथपाल	इन्फैन्ट्री
80340	आकाश सिंह	एएडी
80341	अंकित लाकडा	इन्फैन्ट्री
80342	प्रणय रावत	इन्जिनियर्स
80343	हेमन्त सिंह	इन्फैन्ट्री
80344	श्रीराज एस राजीव	एएडी
80345	संदीप दत्ता	आर्टी
80346	एस ऐडी सिंह	आर्टी
80347	सावन कुमार	इंट
80348	शैलेन्द्र सिंह खम्मा	इन्फैन्ट्री
80349	जयदीप नारायण जगताप	इन्फैन्ट्री
80350	अनूब कुमार खाती	आर्टी
80351	अपूर्व सिंघल	आर्टी
80352	विश्वेन्द्र कटारिया	इन्फैन्ट्री
80353	करामत अली खान खोखर	एएससी
80354	भुवन उपाध्याय	मैक इन्फैन्ट्री
80355	नरेन्द्र कुमार	इन्फैन्ट्री
80356	रविंदर जराल	ईएमई

80357	अरशीद हुसैन भट्ट	इन्फैन्ट्री
80358	जॉर्ज अगस्टिन	इन्फैन्ट्री
80359	डिको कुमार दास	आर्टी
80360	लोकेश सिंह तंवर	आर्टी
80361	सुनील कुमार बिश्नोई	एओसी
80362	सदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
80363	थांगमिनगोई माते	इन्फैन्ट्री
80364	अतुलबल अंजने	इन्फैन्ट्री
80365	भगवान गी घा	आर्टी
80366	शुभ्रांशु श्रेष्ठ	मैक इन्फैन्ट्री
80367	हरप्रीत सैनी	एएडी
80368	सोनू कुमार	इन्जिनियर्स
80369	कन्वर कीरत सिंह	एसी
80370	परमिन्दर सिंह	एसी
80371	नवदीप मदरा	सिग्नल्स
80372	पुलकित सिंह	इन्फैन्ट्री
80373	पीयूष भट्ट	इन्जिनियर्स
80374	सुरेश सूरगानि	ईएमई
80375	ऋषभ कृष्ण	इन्फैन्ट्री
80376	राहुल कुमार सिंह	एएडी
80377	स्वराज सिंह	इन्फैन्ट्री
80378	कनिष्क मान	एसी
80379	मोहित सोनी	एओसी
80380	सेटटी विश्वम रमेश	मैक इन्फैन्ट्री
80381	आयुष मलिक	एवीएन
80382	सुमित कुमार	आर्टी
80383	तारीफ सिंह	इन्फैन्ट्री
80384	आशीष कुमार सिंह	आर्टी
80385	श्रुतिमान शुक्ला	एएससी
80386	आदित्य जैन	आर्टी
80387	महांतेश बासवराज बरगाली	आर्टी
80388	प्रभाकर काजी	इन्फैन्ट्री
80389	शांतनु मिश्रा	इन्जिनियर्स
80390	मिथुन बिन्नी	आर्टी
80391	विकास गोयल	एएससी
80392	रंजनीत सिंह घोटरा	आर्टी
80393	प्रिंस थोमस	ईएमई
80394	सचिन	इन्फैन्ट्री
80395	अभिषेक चौरे	आर्टी
80396	रितेश सेन	आर्टी
80397	दीपांशु श्योरान	एसी
80398	संजय कुमार खनका	इन्फैन्ट्री
80399	रजत महाजन	एएडी
80400	अंशुल दलाल	सिग्नल्स
80401	नीरज खजूरिया	मैक इन्फैन्ट्री

80402	अंकुश चन्याल	इन्जिनियर्स
80403	सत्यम दिवेदी	एओसी
80404	अभिमन्यु बाली	इन्फैन्ट्री
80406	दोंदे प्रतिक प्रकाश	इन्फैन्ट्री
80408	संकल्प यादव	आर्टी
80409	दुर्गेश भदूरिया	इन्फैन्ट्री
80410	श्रीजेष एम	एओसी
80411	वाई एल नरसिम्हन	इन्फैन्ट्री
80412	आदर्श कुमार	इन्फैन्ट्री
80413	नितेश कुमार सिंह	एवीएन
80414	यमलम जोश	इन्फैन्ट्री
80415	भुवनेश मल्होत्रा	एएससी
80416	शशांक शेखर	इंट
80417	अंकित राय	इन्फैन्ट्री
80418	निरोमन सिंह	आर्टी
80419	गगनप्रीत सिंह	आर्टी
80420	सौरभ वालिया	ईएमई
80421	रविन्द्र राय	इन्जिनियर्स
80422	हरदीप कुमार	इन्फैन्ट्री
80423	गौरव	इन्फैन्ट्री
80424	तेज नारायण कुँवर	इंट
80425	लालरामरुआता राल्ते	इन्फैन्ट्री
80426	अमरदीप शर्मा	इन्फैन्ट्री
80427	दुर्गापाल महेश केशवदत्त	एएडी
80428	आदित्य पुनेथा	आर्टी
80429	सिद्धार्थ	एएससी
80430	कर्मवीर सिंह	आर्टी
80431	श्रेयांस अग्रवाल	एएससी
80432	अनुज कुमार	एएडी
80433	बिकाश राय	एएससी
80434	राहुल शर्मा	इन्फैन्ट्री
80435	निलेश कुमार पांडे	आर्टी
80436	विवेक त्यागी	इन्फैन्ट्री
80437	अभिषेक शर्मा	इन्जिनियर्स
80438	पवन सिंह धामी	ईएमई
80439	अजय यादव	मैक इन्फैन्ट्री
80440	बिरेन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
80441	शांतनु सिंह	आर्टी
80442	विनीत जखमोला	सिग्नल्स
80443	करन	एसी
80444	सचिन कुमार राय	एएससी
80445	सत पाल	एओसी
80446	अनुराग सिंह	एसी
80447	विवेक पंनवर	आर्टी
80448	अब्दुल करीम आई	आर्टी

80449	ईशान सिंह	आर्टी
80450	लक्ष्मण चौधरी	इन्फैन्ट्री
80451	शब्बीर हुसैन	इन्फैन्ट्री
80452	हिमाशु शेखर	आर्टी
80453	साहिल टोंक	आर्टी
80454	सुरेन्द्र अरोरा	एएससी
80455	तोशण द्विवेदी	एएससी
80456	दिवाकर सिंह शाही	इन्फैन्ट्री
80457	शेखर संवाल	इन्फैन्ट्री
80458	अरविन्द	एओसी
80459	हिमांशु थापा	आर्टी
80460	हिमांशु	आर्टी
80461	लोखंडे ओंकार गुलाबराव	एएडी
80462	दीपक कुमार	ईएमई
80463	ढोमणे प्रशील प्रवीण	इन्फैन्ट्री
80465	अभिषेक रिक्वाल	इन्फैन्ट्री
80466	अमृत कुमार	इन्फैन्ट्री
80467	अंजिलिकल अनेल जॉय	एवीएन
80468	विकास खत्री	मैक इन्फैन्ट्री
80469	शेशांक चौहान	आर्टी
80470	राजीव कुमार सी एम	एएडी
80471	गदरे ऋषिकेश शीरिश	इन्फैन्ट्री
80472	किशन कुमार गुप्ता	एएससी
80473	अभिजीत बरुवा	आर्टी
80474	शुभम ठाकुर	इन्फैन्ट्री
80475	भट्ट हार्दिक पंकज	इन्फैन्ट्री
80477	गौरव पुरकायस्था	एसी
80478	अमनदीप पटियाल	इन्फैन्ट्री
80479	भक्तराम गौड़ा	इन्जिनियर्स
80480	कुन्दन कुमार चंदन	आर्टी
80481	हर्षदीप सिंह सूदान	एसी
80482	गौरव परमार	एओसी
80483	आदर्श चौरसिया	ईएमई
80485	नवनीत सिंह	इन्फैन्ट्री
80486	करन सिंह	एओसी
80487	के अशोक कुमार	इन्फैन्ट्री
80488	अभिषेक	एएससी
80489	शुभम शांडिल्य	आर्टी
80490	कनव शर्मा	एसी
80491	राहुल कुमार	इन्फैन्ट्री
80492	अभिनन्दन सुभाष	एसी
80493	हागे कापा	इन्फैन्ट्री
80494	किशन ठाकुर	इन्फैन्ट्री
80495	आकाश नेगी	इन्फैन्ट्री
80496	मिथुन घोष	एओसी

80497	महेश इन्द्रजीत बिराजदार	आर्टी
80498	अंशुमान गंगेले	आर्टी
80499	विकास कुमार सोन्डल्या	ईएमई
80500	प्रभात उपाध्याय	इन्जिनियर्स
80501	दीपक भारद्वाज	एएडी
80502	अंकुर राणा	आर्टी
80503	पुण्यानन्द झा	आर्टी
80504	अंशुल पाण्डेय	आर्टी
80505	अभिषेक सिंह	सिग्नल्स
80506	आजातशत्रु रामपाल	इन्फैन्ट्री
80507	ऋषि पाण्डेय	आर्टी
80508	साहिल अरोड़ा	इन्फैन्ट्री
80509	रमेश चन्द्रा पाठक	इन्फैन्ट्री
80510	आदित्य दुर्गापाल	आर्टी
80511	संदीप कुमार पाण्डेय	एएडी
80512	सतीश कुमार शेखावत	एएससी
80513	हिमान्सु	मैक इन्फैन्ट्री
80514	प्रवीण यादव	एसी
80515	राम सिंह फरतियाल	इन्जिनियर्स
80516	प्रवीन कुमार डबास	इन्फैन्ट्री
80517	भूपेश बैरागी	एएससी
80518	विकांत चौहान	एएडी
80519	अभीष्ट द्विवेदी	ईएमई
80520	विष्णु सिंह	इन्फैन्ट्री
80521	करनजीत सिंह जसपाल	एसी
80522	बहादुर सिंह	मैक इन्फैन्ट्री
80524	सुखपाल सिंह	मैक इन्फैन्ट्री
80527	देवांश मेहता	एवीएन
80528	रवि राणा	इन्फैन्ट्री
80529	बीनु कुमार बी	आर्टी
80530	राजीव कुमार	इन्फैन्ट्री
80531	अमित चन्दा	आर्टी
80532	सन्दीप कुमार	इन्फैन्ट्री
80533	अंकित नैन	आर्टी
80534	विकास हुड्डा	इंट
80535	संतोषकुमार बी	सिग्नल्स
80536	ऋषिकेश कुमार	आर्टी
80538	अभिमन्यु कुमार	आर्टी
80539	रजनीश कुमार	एओसी
80540	नायर मोहित मोहनदास	इन्फैन्ट्री
80541	रवीश उज्जवल	इन्फैन्ट्री
80542	नरेन कुमार डी	इन्जिनियर्स
80543	शैलभ शरद	एएडी
80544	नवीन कुमार	एएससी
80545	सुमीत कुमार जैना	इन्जिनियर्स

80546	दिवांशु अग्रवाल	एएससी
80547	संजय सिंह बघेल	एओसी
80548	शशांक शर्मा	इन्जिनियर्स
80549	अविनाश कुमार	इन्फैन्ट्री
80550	सौमाल्लया पाल	आर्टी
80551	पिल्लई मिथुन	आर्टी
80552	अनुराग पारीक	मैक इन्फैन्ट्री
80554	अर्जुन अरुण कुमार	एसी
80555	सत्येन्द्र कुमार गीरी	आर्टी
80556	पुशपेन्द्र सिंह	एसी
80557	विजय तोमर	आर्टी
80558	शिवजीत सिंह	एओसी
80559	निखिल जमवाल	इन्फैन्ट्री
80560	कैलाश मलिक	एएससी
80561	उपाध्याय अर्पितकुमार महेन्द्रा	ईएमई
80562	कुमार अभिमन्यु	आर्टी
80563	विवेक कुमार	सिग्नल्स
80564	सोनू यादव	एएडी
80565	प्रकाश चन्द्र मिश्रा	आर्टी
80566	वसन्ता रंजन	एओसी
80567	एस शब्बीर बाशा	इन्फैन्ट्री
80568	अभिषेक कटोच	इन्फैन्ट्री
80569	तनुज पठानिया	आर्टी
80570	नीलाभ खाती	इन्फैन्ट्री
80571	राहुल सिंह गुर्जर	इन्फैन्ट्री
80572	सर्वप्रिय शर्मा	इन्फैन्ट्री
80574	प्रतीक कुमार भट्टाचार्य	एएडी
80575	मेनन विश्वास पदमप्रसाद	इन्फैन्ट्री
80576	संदेश कुर्देकर	आर्टी
80577	आकाशदीप अत्री	इन्जिनियर्स
80578	आयुष फिलिप्स	इन्फैन्ट्री
80579	विनीत पल्लव	एओसी
80580	हसन खान	इन्फैन्ट्री
80581	ऋषि कुमार यादव	एएडी
80582	नमितेष दीक्षित	इन्फैन्ट्री
80583	कुणाल कुमार	आर्टी
80584	जसीलुद्दीन एन जे	एएससी
80585	विनीत फर्त्याल	इन्फैन्ट्री
80586	दीपेश सिंह	आर्टी
80587	नरेन्द्र कुमार	इन्फैन्ट्री
80588	रोबिन	एएससी
80589	अनिकेत पवार	आर्टी
80590	यतीन भारद्वाज	आर्टी
80591	तनुज गुप्ता	इंट
80592	अम्बारिश नाफडे	एसी

80593	ओईनाम कुष्णादास सिंह	इन्फैन्ट्री
80595	चाणक्य कौशिक	आर्टी
80596	अमित कुमार	एओसी
80597	संतोष सिंह	इन्फैन्ट्री
80599	कुमार ललन सिंह	आर्टी
80600	अंकुर तोमर	एएडी
80602	असीम जामवाल	इन्फैन्ट्री
80603	मंगेश लहानकर	इन्फैन्ट्री
80604	गौरव मिश्रा	एसी
80605	विशाल सोलंकी	इन्फैन्ट्री
80606	रितुराज मिश्रा	मैक इन्फैन्ट्री
80608	शरीफ ए	इन्फैन्ट्री
80609	शुभम सिंह	इन्जिनियर्स
80610	राहुल तिवारी	आर्टी
80611	जीविन फीलिप जॉर्ज	ईएमई
80612	राना भारती	आर्टी
80613	धनंजय सिंह हुडा	एसी
80614	ऋतुराज सिंह रावत	सिग्नल्स
80615	सोम्या साकेत	एएससी
80616	जेरेमिया सेम्युल	आर्टी
80617	शुभम मंडल	मैक इन्फैन्ट्री
80618	अनूप यादव	इन्फैन्ट्री
80619	शैलेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
80620	आनन्द विक्रम सिंह	एएडी
80621	शान्तनु धाटपाण्डे	इन्फैन्ट्री
80622	प्रवीन कुमार	इन्फैन्ट्री
80623	मनोज कटयाल	आर्टी
80624	नीरज कुमार शर्मा	आर्टी
80625	पराग शरोत्री	इन्फैन्ट्री
80626	मुकेश कुमार गुलशन	एओसी
80627	अभिषेक दूबे	इन्जिनियर्स
80628	सर्वप्रिय अमन	आर्टी
80629	दिपांशु राज	एएडी
80630	अभिजित श्याम	आर्टी
80631	आकाश थापा	एसी
80632	कातुरु कार्तिक	एएससी
80633	तुषार शर्मा	इन्फैन्ट्री
80634	कुणाल एस नायर	एएससी
80635	संदीप गुप्ता	मैक इन्फैन्ट्री
80636	पंकज कुमार अत्री	इंजिनियर्स
80637	अभिनव कुमार सिन्हा	इंजिनियर्स
80638	विशाल थापा	इन्फैन्ट्री
80639	स्वतन्त्र	इंजिनियर्स
80640	विकाश चन्द्र पाण्डेय	आर्टी
80641	तरुण कुमार	एएडी

80642	विशाल राणा	ईएमई
80643	शिव कुमार	इंजिनियर्स
80644	विभांशु वशिष्ठ	सिग्नल्स
80645	नितेश कुमार	इंजिनियर्स
80646	विनायक चौबे	आर्टी
80647	अमित देशववाल	इन्फैन्ट्री
80648	निपुण डुमरा	एसी
80649	दीपक जेभय	इंजिनियर्स
80650	प्रदीप कुमार	ईएमई
80651	अमन अब्बी	आर्टी
80652	पुष्पेन्द्र यादव	सिग्नल्स
80653	दीपक कुमार	ईएमई
80654	संदीप मिश्रा	ईएमई
80655	प्रदीप सिंह चहल	इंजिनियर्स
80656	तरनजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
80657	अभिमन्यु शर्मा	इन्फैन्ट्री
80658	निशान्त वर्मा	ईएमई
80659	सूर्य प्रताप सिंह मनकोटिया	इन्फैन्ट्री
80660	तरुण कुमार गेरा	इंजिनियर्स
80661	प्रभात कुमार शुक्ला	इंजिनियर्स
80662	यशविन्दर	ईएमई
80663	रणधीर कुमार	ईएमई
80664	अंकित चौधरी	इंजिनियर्स
80665	महेश पवार	इंजिनियर्स
80666	शुभांगु भारद्वाज	ईएमई
80667	सौरभ श्रीवास्तव	इन्फैन्ट्री
80668	भूपेन्द्र सिंह	सिग्नल्स
80669	मोहम्मद नावेद	ईएमई
80670	ध्रुवल वाष्णेय	ईएमई
80671	अरुण कुमार	ईएमई
80672	केशव कुमार	ईएमई
80673	अभिषेक चन्दोला	सिग्नल्स
80674	ममून अल रशीद	सिग्नल्स
80675	हर्ष वर्धन दलाल	सिग्नल्स
80676	राहुल कुमार वर्मा	सिग्नल्स
80677	बोनम रवि कुमार	आर्टी
80678	राकेश राणा	इंजिनियर्स
80679	आशुतोष सरावगी	ईएमई
80680	अभिषेक सिंह भदौरिया	एएडी
80681	अमन यादव	ईएमई
80682	लवप्रीत सिंह	इन्फैन्ट्री
80683	हेमेन्द्र सिंह	आर्टी
80684	ललित कुमार शर्मा	इंजिनियर्स
80685	मुकुल कुमार छोकर	सिग्नल्स
80686	रवि शौकीन	सिग्नल्स

80687	सतेन्द्र प्रताप सिंह	ईएमई
80688	अमित पाण्डेय	ईएमई
80689	गिरीजेश	इंजिनियर्स
80690	आदित्य सोमवंशी	इन्फैन्ट्री
80691	अभिषेक विश्वास	सिग्नल्स
80692	रोहित कुमार	ईएमई
80693	वरुण उदय पिसोलकर	इंजिनियर्स
80694	अंकित गुप्ता	सिग्नल्स
80695	सुनिल कुमार	ईएमई
80696	विक्रम जाधव वी	इंजिनियर्स
80697	रोशन कुमार दत्ता	सिग्नल्स
80698	रोहित वर्मा	इंजिनियर्स
80699	आशीष शुक्ला	ईएमई
80700	अयुश गंधरा	मैक इन्फैन्ट्री
80701	धर्मेन्द्र सिंह	इंजिनियर्स
80702	राजदीप सिंह	ईएमई
80703	राहुल कुमार	इंजिनियर्स
80704	टीकम सिंह	सिग्नल्स
80705	रवी नारायण उपाध्याय	ईएमई
80706	आर एन जी जोसफ अनल	सिग्नल्स
80707	सुयश चित्रांश	इन्फैन्ट्री
80708	रेजिजी के	इंजिनियर्स
80709	सम्राट	इंजिनियर्स
80710	वेदान्त ध्यानी	आर्टी
80711	अखण्ड प्रताप सिंह	इंजिनियर्स
80712	चेतन ठाकुर	इंजिनियर्स
80713	निलय विश्वास	ईएमई
80714	वरुण गुप्ता	इन्फैन्ट्री
80715	आयुष कुमार सिंह	सिग्नल्स
80716	विश्वेंदर	इंजिनियर्स
80717	आर ज्योतिराज रेड्डी	ईएमई
80718	कुमार विनायक	आर्टी
80719	सिद्धार्थ राठी	इंजिनियर्स
80720	कुणाल वर्मा	इन्फैन्ट्री
80721	नवदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
80722	गौरव कुमार सिंह	आर्टी
80723	साहिल कुमार	इंजिनियर्स
80724	करन महला	मैक इन्फैन्ट्री
80725	विशेष तिवारी	एसी
80726	शैलेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
80727	संदीप कुमार सैनी	ईएमई
80728	आशीष कुमार	सिग्नल्स
80729	विवेक शुक्ला	सिग्नल्स
80730	लियो मेथ्यूज	इन्फैन्ट्री
80731	चीवीकुल्ला साई सुमेध	इंजिनियर्स

80732	भगत सिंह राघव	इंजिनियर्स
80733	सुधीर कुमार	इंजिनियर्स
80734	शिवांश कौशिक	ईएमई
80735	विकास सिवाच	एसी
80736	प्रशान्त कुमार मिश्रा	आर्टी
80737	अनुपम मिश्रा	इंजिनियर्स
80738	अखिलेश कुमार सिंह	ईएमई
80739	गौरव कुमार यादव	ईएमई
80740	जतिन शर्मा	ईएमई
80885	रोहन खत्री	एईसी
80895	अमरित कुमार एन	एईसी

— 13 जून 2017 —

कप्तान से मेजर

आई सी सं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
70339	वैभव सिंह	इंफैंट्री	07 जून 2014
73195	आनंद ए शिराली	इंफैंट्री	17 अक्टूबर 2013

अभिषेक तिवारी
ले कर्नल
ए एम एस 8 बी

सेना शाखा

सं. 242, दिनांक 6 अक्टूबर 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :—

नियमित सेना

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस.सी.)

ले. से कप्तान

एस सी सं.	नाम	आर्म
00891	शक्ति सिंह शेखावत	एओसी
00892	पाटील रतीश रमेश	आर्टी
00893	मनोज कुमार	मैक इन्फैंट्री
00894	हेमन्त कुमार शर्मा	इन्फैंट्री
00895	जोधवीर सिंह	एएससी
00896	सन्दीप	एसी
00897	प्रेवाल डेका	सिग्नल्स
00898	दिपेन्द्र सिंह राठौड़	इन्फैंट्री
00899	विनोद कुमार	ईएमई
00900	अमित कुमार	एएडी
00901	संजय कुमार	ईएमई
00902	केदार सिंह नेगी	इन्फैंट्री
00903	देवराज कुमार	ईएमई
00904	एस राजशेखर रेड्डी	एएडी
00905	राजेन्द्र प्रसाद जाट	इन्फैंट्री

00906	कमान बहादुर थापा	सिग्नल्स
00907	मनोरंजन नायक	एएससी
00908	आनन्द सी एस	आर्टी
00909	राजेश कुमार जी आर	इन्फैन्ट्री
00910	शिवविन्दर सिंह	एओसी
00911	त्रिपाठी सुरेश कुमार रामगोपाल	आर्टी
00912	ए एस सोंगचैन जिमिक	सिग्नल्स
00913	सुधिर पात्रो	आर्टी
00914	राकेश कुमार सैनी	इन्फैन्ट्री
00915	किरण कुमार पित्तमल्ला	इंजिनियर्स
00916	कोनजेंगम सोमोकांता सिंह	इंजिनियर्स
00917	निखिल एस	इन्फैन्ट्री
00918	अनूप कुमार	इंजिनियर्स
00919	शक्ति सिंह	आर्टी
00920	बिनीष पी के	आर्टी
00921	गुलाब सिंह	ईएमई
00922	मो जाफर खान	आर्टी
00923	शक्ति सावन क्षेत्री	इन्फैन्ट्री
00924	सन्तोष शर्मा	इन्फैन्ट्री
00925	हरिश कुमार	इन्फैन्ट्री
00926	पंकज चंडेल	इंजिनियर्स
00927	विपिन सिंह गैरा	इंजिनियर्स
00928	पिसाल अतिश वसंतराव	आर्टी
00929	अजित कुमार जे	इन्फैन्ट्री
00930	रेशम कुमार पून	मैक इन्फैन्ट्री
00931	अजीत कुमार	सिग्नल्स
00932	जगजाप आनंद उत्तम	एओसी
00933	चन्द्रा शेखर वी	इन्ट
00934	सुरेन्द्र सिंह धनखड़	एएससी
00935	के मोहम्मद आसिफ	एसी
00936	कुमार जयेन्द्र	ईएमई
00937	सचिन कुमार	इन्फैन्ट्री
00938	कारामुंगे योगेश नारायण	इंजिनियर्स

— 13 जून 2017 —

स्थायी कमीशन ले से कप्तान

आई सी संख्या	नाम	आर्म
82013	अविजीत हजरा चौधरी	इंजिनियर्स
82014	अमित सबरवाल	एएससी
82015	गौरव सिंह चुफाल	ईएमई

82016	अनिरुद्ध सिंह	इंजिनियर्स
82017	अनिरुद्ध जोशी	इन्फैन्ट्री
82018	शूभांकर मुखर्जी	इन्फैन्ट्री
82019	वैभव कुकरेती	सिगनल्स
82021	आयुष काजला	मैक
82022	शिवारामाकृष्ण एल	इन्फैन्ट्री
82023	दीक्षित एम पी	इन्फैन्ट्री
82024	कपिल शाह	एवीएन
82025	निर्वान सिंह	सिगनल्स
82028	दीपेश तोमर	एसी
82029	अधिराज सिंह राठौर	इंजिनियर्स
82030	अंकित शर्मा	इन्फैन्ट्री
82031	पार्थ देव	इंजिनियर्स
82033	रोहित मेहरा	एएडी
82035	कुणाल	एएससी
82036	मंगी सुभम संजय	आर्टी
82038	गौरव खैर	इन्फैन्ट्री
82040	पंकज कुमार	ईएमई
82041	अजय प्रताप सिंह	आर्टी
82042	संचीत शर्मा	मैक
82043	कुणाल शर्मा	ईएमई
82046	पंकज कुमार	आर्टी
82047	अभिजीत राणा	इन्फैन्ट्री
82048	सरथ मानो	ईएमई
82050	प्रतीक गुप्ता	आर्टी
82051	दिग्विजय यादव	ईएमई
82052	सलूनखे अजींक्या अशोक	इन्फैन्ट्री
82053	सिद्धार्थ चक्रवर्ती	इंजिनियर्स
82055	अनुराग द्विवेदी	इंजिनियर्स
82056	अंकित कुमार	आर्टी
82057	इन्द्र प्रीत सिंह रंधावा	इन्फैन्ट्री
82059	मैलविन शाहजी	इंजिनियर्स
82061	प्रभु सी	ईएमई
82062	वाकुचौरे अनिकेत पांडुरंग	एएडी
82063	गौरव कुमार	इन्फैन्ट्री
82064	सैफ अहमद फारुकी	सिगनल्स
82065	विवेक कुमार चौबे	ईएमई
82067	सयद अथहर परवेज	आर्टी
82068	सक्षम शर्मा	इंजिनियर्स
82069	सतीश मिश्रा	इंजिनियर्स
82070	आकाश त्यागी	आर्टी
82073	वंश सूद	इंजिनियर्स
82074	अजय सिंह नेगी	इंजिनियर्स
82078	निशांत श्याम सुन्दर	सिगनल्स
82079	नरेन्द्र सिंह नेगी	इन्फैन्ट्री

82080	अंकीत सिंह बानी	आर्टी
82082	यशवन्त मिथारवाल	सिगनल्स
82083	अजित कुमार सिंह	सिगनल्स
82084	चिंतकायला सतीश	इंजिनियर्स
82085	राजन कपूर	इंजिनियर्स
82086	सूरज सिंह	इन्फैन्ट्री
82088	गौरव कुमार	सिगनल्स
82089	प्रतीक कुमार पाण्डेय	एवीएन
82092	पाटिल केशव विलास	इंजिनियर्स
82093	भावेश पुरी	आर्टी
82094	अंकुर सिंह	एओसी
82095	अखिल कुमार	इन्फैन्ट्री
82096	आशुतोष शर्मा	इंजिनियर्स
82097	जसप्रीत सिंह	सिगनल्स
82099	अभिषेक चौधरी	एओसी
82100	पुनर्वाशु मैराल	इन्फैन्ट्री
82101	क्षितिज मान	सिगनल्स
82102	विनीत कुमार	इन्फैन्ट्री
82103	नवीन जी के	एसी
82104	सुदीप जॉय जॉसफ	इंजिनियर्स
82105	अक्षय दहिया	इंजिनियर्स
82106	अंकुर तिवारी	इंजिनियर्स
82108	अंकित पलिया	एओसी
82109	आर विगनेश शंकर	इंजिनियर्स
82110	आयुष नागपाल	मैक
82111	आकाश गुप्ता	इंजिनियर्स
82113	राहुल सिंह	एएससी
82114	प्रसिद्ध नायक	आर्टी
82115	अंकित लाथर	सिगनल्स
82116	चैतन्य केशव शर्मा	ईएमई
82117	पुष्पित भुल्लर	ईएमई
82118	विनय कुमार	आर्टी
82119	शेखर सिंह रावत	इंजिनियर्स
82120	राजीव पाण्डेय	एएससी
82121	भरत एस	आर्टी
82122	अभिषेक रावत	इन्फैन्ट्री
82123	अभिनव वत्स	आर्टी
82124	गुरसिमरन सिंह कालेका	एसी
82126	शालीन कुमार	इंजिनियर्स
82127	अखिल राधाकृष्णन	ईएमई
82128	जेफिन जोस	सिगनल्स
82129	अवनीश कुमार सिंह	एवीएन
82130	अंकित वतस	ईएमई
82131	अमृत सागर	इंजिनियर्स
82132	प्रवीन कुमार	एसी

82133	अनन्य वी	ईएमई
82135	सी अर्जुन	एएडी
82136	स्वपनिल सिंह रावत	इंट
82139	निर्णय नाथ	इन्फैन्ट्री
82142	कुनाल मेहता	इन्फैन्ट्री
82143	अमीत कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
82145	अविराज शेखावत	सिगनल्स
82146	शुभम सूद	इंजिनियर्स
82147	रामस्वरूप	एएससी
82148	मल्लिकार्जुन एएसवी	ईएमई
82149	अर्जुन सिंह	इन्फैन्ट्री
82150	वैभव तिवारी	इंट
82151	अभिनन्दन त्यागी	एएससी
82152	रवि कुश	इंजिनियर्स

— 14 जून 2017 —

एम पी शर्मा
उप निदेशक
एम एस 8सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th November 2017

D(MS) SECTION

No. 239, dated 3rd October 2017—The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 25 July 2017: —

PRINCIPAL HONORARY ARMY ADC

IC-35471M General Bipin Rawat, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, INF

HONORARY ARMY ADC

ARMD CORPS

IC-35602M Lt Gen AB Shivane, PVSM, AVSM, VSM, ARMD

INFANTRY

IC-35173W Lt Gen RJ Noronha, PVSM, AVSM**, SM, INF

IC-35137L Lt Gen PM Hariz, PVSM, AVSM, SM, VSM, MECH INF

ARTY:AAD

IC-35929L Lt Gen Vinod Vashisht, AVSM, VSM**, ARTY

ENGRS:SIGS

IC-39846X Lt Gen AR Prasad, AVSM, VSM, SIGS

ASC:AOC:EME

IC-35796A Lt Gen Kanwal Jeet Singh, AVSM, VSM, EME

The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 September 2017: —

HONORARY ARMY ADC

INFANTRY

IC-35479Y Lt Gen BS Negi, UYSM, YSM, SM, VSM**, INF

Vice

IC-35173W Lt Gen RJ Noronha, PVSM, AVSM**, SM (Retired), INF

ASC/ AOC/ EME

IC-39464N Lt Gen MH Thakur, VSM, ASC

Vice

IC-35796A Lt Gen Kanwal Jeet Singh Gill, AVSM, VSM (Retired), EME

The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 25 July 2017: —

PRINCIPAL HONORARY AIR ADC

Air Chief Mshl BS Dhanoa, PVSM, AVSM, YSM, VM (15405) F(P)

HONORARY AIR ADC

Air Mshl SB Deo, PVSM, AVSM, VM, VSM (15681) F(P)

Air Mshl RK Dhir, PVSM, AVSM, VM (15678) F(P)

Air Mshl J Walia, PVSM, VM, VSM (15684) F(P)

Air Mshl C Hari Kumar, AVSM, VM, VSM (15881) F(P)

The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 25 July 2017: —

PRINCIPAL HONORARY NAVAL ADC

Admiral Sunil Lanba, PVSM, AVSM (01823T)

HONORARY NAVAL ADC

Vice Admiral Girish Luthra, PVSM, AVSM, VSM (02011W)

Vice Admiral HCS Bisht, PVSM, AVSM (02035Z)

REVATI RAMAN
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 240, dated 4th October 2017—The President is pleased to make the following promotions: —

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(ARMY MEDICAL CORPS)

Col (& Equivalent) to be Brig (& Equivalent)

S Das (MR-06456P)	-	15-02-17, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-08-16.
----------------------	---	--

Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv)

CM Singh, VSM (MR-06317L)	-	11-04-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-01-12
Sanil Mohan (MR-06318N)	-	11-04-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-02-12
Amit Saxena (MR-06328X)	-	30-04-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-02-12
A Ghai (MR-06329A)	-	02-07-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-02-12
S Anayath (MR-06335N)	-	28-05-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-02-12
Anupam Agrawal (MR-06341F)	-	10-05-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-02-12
Sumit Kumar (MR-06334L)	-	30-04-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-03-12
(Ms) Shailja Karki (MR-06607H)	-	11-06-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-04-12
VK Patra (MR-06727F)	-	12-04-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-04-12
RK Nair (MR-06345X)	-	19-06-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-04-12
B Harikrishnan (MR-06358P)	-	07-07-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-05-12
SK Verma (MR-06362X)	-	07-07-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-05-12
Sanjeevan Sharma (MR-06366N)	-	07-07-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-05-12
SK Maurya (MR-06370W)	-	07-07-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 10-05-12

RN Verma (MR-06372F)	-	18-07-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-06-12
Sanjay Sharma (MR-06373K)	-	07-07-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-06-12
N Grover (MR-06375P)	-	06-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 25-06-12
GC Gulati (MR-06377A)	-	03-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-07-12
VCR Matoory (MR-06376X)	-	14-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-07-12
AK Mishra (MR-06378H)	-	22-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-07-12
Barun Datta (MR-06382L)	-	06-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-07-12
Vishal (MR-06385Y)	-	06-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-07-12
HS Deol (MR-06388M)	-	28-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-07-12
KIS Brar (MR-06389P)	-	16-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-07-12
Pijush Jaiswal (MR-06588H)	-	09-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-12
Sanjay Singh (MR-06590A)	-	11-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-08-12
S Ghosh (MR-07046L)	-	08-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-08-12
(Mrs) P Nambiar (MR-07197K)	-	06-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-08-12
(Mrs) S Badwal (MR-06808F)	-	09-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-08-12
MP Cariappa (MR-06420W)	-	28-08-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-08-12
D Choudhury (MR-06422F)	-	25-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 10-08-12
Ramesh Chandra (MR-06423K)	-	12-11-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 11-08-12
A Tuteja (MR-06425P)	-	12-10-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 12-08-12
L Maudar (MR-06430A)	-	17-10-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 13-08-12
JPN Jha (MR-07048W)	-	08-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 14-08-12
SD Singh (MR-07049Y)	-	06-10-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-09-12
Jasbir Singh (MR-06591H)	-	23-10-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-09-12

VK Bhatti (MR-07198M)	-	11-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-09-12
Shishir Jain (MR-06480L)	-	11-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-09-12
D Jayachandar (MR-07161L)	-	23-04-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-09-12
(Mrs) JK Bhatia (MR-06509H)	-	11-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-09-12
RK Anadure, VSM (MR-06517F)	-	11-09-12
DJ Sharma (MR-06518K)	-	17-09-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 11-09-12
Anuj Chawla (MR-06520F)	-	11-09-12
P Ganguli (MR-06522M)	-	11-09-12
D Mukherjee (MR-06530L)	-	01-01-13
J Gambhir (MR-06532W)	-	01-01-13
A Banerjee (MR-06534F)	-	04-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-01-13

Ministry of Defence Gazette Notification published in Part I Section-4 of the Gazette of India on 24 Oct 2015 under the heading Regular Army/Permanent Commission and Sub Heading Lt Col (& equivalent) to be Col (& equivalent) in respect of the above officers may be treated as cancelled.

Lt Col (& equivalent) to be Col (& equivalent)

N Hazra (MR-06620M)	-	08-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 10-01-14.
M N Rajani (MR-07960F)	-	16-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 20-05-14.
A J Paul (MR-06686H)	-	30-05-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-14.
S Naveen (MR-06690L)	-	11-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-14.
N Bandopadhyay (MR-07521W)	-	09-05-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-07-15.
(Ms) Sobha Rani (MR-07601N)	-	11-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-08-15.
Jayanta Borah (MR-07516L)	-	29-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-10-15.
Hakam Singh (MR-07603Y)	-	01-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-10-15.
S Bandopadhyay (MR-06628Y)	-	24-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-11-15.
S Srivastava (MR-07377M)	-	18-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-11-15.
S Sengupta (MR-06851H)	-	12-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-11-15

S M Mendonca (MR-06857K)	-	18-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 15-11-15
M K Tangri (MR-06859P)	-	09-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-12-15
S Kumar (MR-06861M)	-	09-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 10-12-15
Aditya Gupta (MR-06863X)	-	13-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-01-16
Anirudh Singh (MR-06864A)	-	08-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-01-16
R M Karthik (MR-06865H)	-	11-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 12-01-16
(Ms) N Jahan (MR-06866L)	-	08-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-02-16
R Gopi (MR-06871W)	-	09-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-02-16
Parikshit Singh (MR-06873F)	-	09-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 18-02-16
Manish Sharma (MR-06874K)	-	06-06-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 25-02-16
S Anand (MR-06876P)	-	27-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 26-02-16
VS Grewal (MR-06878A)	-	18-05-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-04-16
R Khanna (MR-06879H)	-	17-05-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 20-04-16
P Bhatia (MR-06880X)	-	01-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-16
Pawan Sharma (MR-06886Y)	-	22-06-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-05-16
JM Goel (MR-06887F)	-	21-06-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-05-16
SVS Krishna (MR-06888K)	-	01-09-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-06-16
S Shukla (MR-06889M)	-	15-06-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-06-16
P Angrish (MR-06890F)	-	30-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-06-16
S Kiran (MR-06893P)	-	10-06-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-06-16
Ranjeet Kumar (MR-06897L)	-	10-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-06-16
S Sobti (MR-06899W)	-	10-06-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-06-16
RR Kochhar (MR-06900A)	-	07-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-06-16
(Ms) Manpreet Rai (MR-07779K)	-	14-06-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-06-16
VS Chauhan (MR-06904W)	-	09-06-16

Manoj Kumar (MR-06905Y)	-	01-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 16-06-16
PK Singh (MR-07769A)	-	27-06-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 20-06-16
AN Adhulia (MR-07503N)	-	11-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 20-06-16
(Ms) Jyoti Joshi (MR-07587M)	-	11-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 21-06-16
Rajesh Sehgal (MR-07667K)	-	08-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 22-06-16
VV Sharma, SM (MR-07770P)	-	15-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 23-06-16
PK Shukla (MR-08334K)	-	30-06-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 23-06-16
Vijay Kumar, SM (MR-07837H)	-	14-07-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 23-06-16
MK Amar (MR-07940N)	-	17-09-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 25-06-16
RW Adhau, SM (MR-07954N)	-	07-09-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 27-06-16
HN Veerendra (MR-07498N)	-	08-09-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 27-06-16
(Ms) Anindita Basu (MR-07488K)	-	07-09-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 18-07-16
(Miss) A Rita Porkodi (MR-07595L)	-	08-09-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-16
Anamika Sharma (MR-08097L)	-	07-09-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-08-16
RK Gupta (MR-06912P)	-	07-09-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-08-16
(Ms) Sharmila Sinha (MR-06914A)	-	04-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-08-16
D Verma (MR-06923F)	-	13-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-16
A Chaudhary (MR-06932H)	-	05-11-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-09-16
JS Randhawa (MR-06933L)	-	14-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-16
AK Shakya (MR-06934N)	-	13-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-16
S Dasgupta (MR-06939M)	-	15-11-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-10-16
DK Sinha (MR-06921W)	-	30-12-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-10-16
A Kushal (MR-06928A)	-	13-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-10-16
(Ms) T Shrivastava (MR-07941W)	-	14-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-10-16
(Ms) Tanushri Mukherjee (MR-07492M)	-	02-11-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-10-16

Vipul Dutt (MR-07673X)	-	14-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 08-10-16
K Venkatraman (MR-07659L)	-	17-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 10-10-16
SK Sharma (MR-07942Y)	-	26-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 12-10-16
S Gupta (MR-07780Y)	-	14-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 13-10-16
SS Srivastava (MR-07611X)	-	02-11-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 13-10-16
A Bhatnagar (MR-07822A)	-	02-11-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 24-10-16
SK Patnaik (MR-07669P)	-	01-11-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 24-10-16
Gyan Prakash (MR-07674A)	-	18-11-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 25-10-16
Vivek Agrawal, SM (MR-07612A)	-	16-12-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 29-10-16
Sanjeev Kumar, SM (MR-07768X)	-	06-12-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-11-16
Yogender Yadav (MR-08470A)	-	05-12-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-11-16
VB Sharma (MR-7683F)	-	03-04-17, with notional seniority without effect on pay and pension from 17-11-16
SP Ghodmare (MR-07676L)	-	12-12-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-12-16
Manohar Dutt (MR-07766M)	-	10-01-17, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-12-16
AM Deshmukh (MR-07824L)	-	11-12-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-12-16

Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv)

KD Sodhi (MR-07147Y)	-	16-09-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-09-10
B Bhuyan (MR-06611L)	-	29-10-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 11-09-10
Raju Agarwal (MR-06020K)	-	20-10-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 15-09-10
JS Bhatia (MR-06025H)	-	22-10-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 15-09-10
MS Gill (MR-06028W)	-	20-10-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 25-09-10
AG Mathur (MR-06027N)	-	20-10-10, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-10-10

Ministry of Defence Gazette Notification published in Part I Section-4 of the Gazette of India on 08 Aug 2015 under the heading Regular Army/Permanent Commission and Sub Heading Lt Col (& equivalent) to be Col (& equivalent) in respect of the above officers may be treated as cancelled.

Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv)

Sameer Kumar (MR-06169L)	-	27-05-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-11
S Radhakrishnan (MR-06707N)	-	01-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-05-11
S Suresh Kumar, VSM (MR-06225Y)	-	27-05-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-05-11
M Chatterjee (MR-06226F)	-	20-06-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 17-05-11
A K Ghosh (MR-06227K)	-	27-05-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 22-05-11
Sourav Sen (MR-06229P)	-	11-09-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-06-11
D Mukherjee (MR-06230K)	-	05-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 24-06-11
P Deb (MR-06233X)	-	05-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 24-06-11
Alok Sen (MR-06236L)	-	14-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 27-06-11
Y S Sirohi (MR-06240N)	-	25-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-07-11
R Pakhetra (MR-06243F)	-	19-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-07-11
Yashpal Singh (MR-06244K)	-	23-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 19-07-11
Alok Bhalla (MR-06245M)	-	19-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-11
A Chandra (MR-06247X)	-	29-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-11
R Ramprasad (MR-06249H)	-	19-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-11
Rakesh Verma (MR-06250X)	-	23-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-08-11
M A Parwaz (MR-06251A)	-	27-09-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-08-11
Anand Mishra (MR-06257F)	-	05-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-08-11
Jaswinder Singh (MR-06256Y)	-	19-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 11-08-11
Amul Kapoor (MR-06258K)	-	09-09-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 16-08-11
Rajat Jagani (MR-06259M)	-	19-08-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 19-08-11
Sukriti Baveja (MR-06260F)	-	01-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 23-08-11
P Talwar, VSM (MR-06262M)	-	28-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 29-08-11

R Nair (MR-06265A)	-	11-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-11
S Mansingh (MR-06269W)	-	01-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-11
S Bhalla (MR-06273Y)	-	02-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-11
S K Rode (MR-06280P)	-	01-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-09-11
N S Chhabra (MR-06283H)	-	13-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 12-09-11
K Mohana (MR-06722H)	-	05-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-11
Pankaj Sharma (MR-06274F)	-	17-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-11
Vijayakumar R (MR-07220M)	-	05-03-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 18-10-11
S Naskar (MR-07044A)	-	26-11-11, with notional seniority without effect on pay and pension from 19-10-11
S Das (MR-06724N)	-	17-02-12, with notional seniority without effect on pay and pension from 12-12-11

Ministry of Defence Gazette Notification published in Part I Section-4 of the Gazette of India on 08 Aug 2015 under the heading Regular Army/Permanent Commission and Sub Heading Lt Col (& equivalent) to be Col (& equivalent) in respect of the above officers may be treated as cancelled.

Wg Cdr (& equivalent) to be Gp Capt (& equivalent)

A Gupta (MR-06675W)(AF-23430R)	-	13-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-11-15.
(Ms) Mona Dahiya (MR-06741N)(AF-23416G)	-	12-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-11-15
Angshuman Dutta (MR-06766A)(AF-23456H)	-	13-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-11-15
Anjali Gautam (MR-07663N)(AF-24465T)	-	20-06-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-06-16
K Ganesh (MR-06917N)(AF-33686K)	-	03-10-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 12-08-16
D Salimath (MR-07789N)(AF-35343N)	-	01-11-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 20-10-16

WG CDR TO GP CAPT (TIME SCALE)

MR-06414H (AF-20961-F)	WG CDR	BK GUPTA	01 JUN 2017
------------------------	--------	----------	-------------

SURG CDR TO SURG CAPT (TIME SCALE)

MR-07057X (75547-Y)	SURG CDR	CVSN RAO	30 JUN 2017
MR-06418Y (75533-R)	SURG CDR	SG SWAMY	01 JUN 2017

B SRIDHAR
Brig
Dy DGAFMS (HR)

No. 241, dated 5th October 2017—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
LIEUTENANT TO BE CAPTAIN

IC No	Name	Arm/Services
80179	AJAY KUMAR PATHAK	INF
80180	ASHISH KAPOOR	AC
80181	NAVEEN JANU	INF
80182	ISHAN SHINGHAL	ARTY
80183	SAKET KUMAR	AC
80184	BHESH BAHADUR ROKA	ARTY
80185	ROHIT P NAIR	INF
80186	SURYA PRAKASH	INF
80187	SACHIN YADAV	ENGRS
80188	ALLAN JOY DANIEL	ARTY
80189	RUDRANSH PANDE	INF
80190	DEEPAK KUMAR	AAD
80191	BIDESHI POLAI	EME
80192	SWAPNIL SRIVASTAVA	INF
80193	SUNIL YADAV	ARTY
80194	GURPREET SINGH MULTANI	ASC
80195	M KARTIK REDDY	AVN
80196	AADITYA UDUPA	ASC
80197	MUKESH KUMAR	ARTY
80198	UNNI MOHAN	MECH
80199	AKSHAT DUBEY	MECH
80200	SHOVAN SAHA	SIGS
80201	A RANJITH KUMAR	INF
80202	SANJAY SINGH JAMWAL	AAD
80203	DEEPAK KUMAR RAGHAV	ARTY
80204	JAY SINGH SULODIA	INF
80205	MUKESH KUMAR GUPTA	ENGRS
80206	NILESH BHASKAR	AOC
80207	ASHISH SHEORAN	INF
80208	PRASHANT SINGH	ARTY
80209	VIVEK YADAV	INF
80210	NITISH KUMAR JHA	AC
80211	ABHISHEK YADAV	AAD
80212	DONKA PRAVEEN	EME
80213	DAKE BHARAT BANSI	ARTY
80214	AMIT DILIP KALE	INF
80215	SURENDRA PAL SINGH	ARTY
80216	SANGRAM SINGH CHAUHAN	INF
80217	AKSHYAT DHAMI	ARTY
80218	SHRAWAN KUMAR SINGH	INT
80219	ANKIT SAURABH	ARTY
80220	SUNANDIT MAHAJAN	ASC

IC No	Name	Arm/Services
80221	ROHIT GAUTAM	AOC
80222	PARWEJ ALAM	INF
80223	SANDEEP KUMAR	SIGS
80224	NAGENDRA KUMAR	ASC
80225	VISHNU KUMAR SHUKLA	AAD
80226	AJAY KUMAR	ENGRS
80227	GURPREET SINGH	AOC
80228	DEVANSHU KATHAIT	INF
80229	ABHILASH PATRA	MECH
80230	KS KRANTHI KIRAN RAO	INF
80231	RAHUL MALIK	ARTY
80233	SACHIN MALHOTRA	AVN
80234	A ARIHARA SUDHAN	INF
80235	SHIV KUMAR YADAV	ARTY
80236	SHIVAM MISHRA	AC
80237	ALOK KUMAR GUPTA	INF
80238	ABHINAV BISHNOI	INF
80239	BALRAM SINGH KHARYAL	INF
80240	KASHIDEEP YADAV	EME
80241	ABHISHEK KUMAR	AOC
80242	DEEPAK JOSHI	INF
80243	VIJAY SINGH	AC
80244	GAURAV BASERA	ARTY
80245	ABHISHEKH OJHA	ASC
80246	PIYUSH ANAND	AVN
80247	ROHIT SINGH CHOUHAN	INF
80248	AKASH DEEP	AOC
80249	ANKUR KUMAR	INF
80250	AJIT SINGH	INF
80251	AMIT KUMAR	MECH
80253	VIKAS PARIHAR	ARTY
80254	LIMAYE NIKHIL VINAYAK	INF
80255	B SIVAANAND	ARTY
80256	SUSHANT GARG	INF
80257	TH SHURAJIT SINGH	ASC
80258	M DARWIN VIGNESH	AAD
80259	NIKHIL KUMAR VERMA	ARTY
80260	VIVEK RANA	ASC
80261	RAKESH SINGH	AC
80262	AISHWARY SHIVHARE	AAD
80263	VIKRAMJEET SINGH	INF
80264	ADITYA RAMAN	SIGS
80265	MUKUL DUTT	ARTY
80266	HARISH SHARMA	ENGRS
80267	ROHAN JAIN	ARTY
80268	VINAY YADAV	ENGRS

IC No	Name	Arm/Services
80269	HIMANSHU MISHRA	INF
80270	VINOD KUMAR MISHRA	AC
80271	PRAVIN KUMAR MATHAPATI	ASC
80272	VISHAL DEV	INF
80273	SURYA DAHIYA	ENGRS
80274	SUSHRUJEN PANGEIJAM	INF
80275	RAKESH KUMAR	AOC
80276	ARPIT KAPOOR	ARTY
80277	ABHISHEK PRABHAT	INF
80278	SATYA PRAKASH TRIPATHI	AAD
80279	ANJANI KUMAR SINGH	AVN
80280	GURDEEP SINGH WAZIR	INF
80281	BHATE SHOUNAK RAVINDRA	ENGRS
80282	RAKESH KUMAR SWAIN	SIGS
80283	ABESH CHAUHAN	MECH
80284	ABHISHEK RANJAN	ARTY
80285	NIEL DAVIS	INF
80286	VIPUL TIWARI	ASC
80287	ANURAG SINGH	EME
80288	AKSHAY PRASOON	INF
80289	DHARMENDRA SINGH BHADOURIA	MECH
80290	VIKAS KUMAR	ARTY
80291	VIRENDER PRATAP RATHORE	AAD
80292	KADAM PRAVIN DILIP	EME
80293	PARTH JUNEJA	ARTY
80294	RAJINDER SINGH VIRK	AOC
80295	SHIVANK PATHAK	INF
80296	CHANDAN KUMAR ROY	ARTY
80297	WASIF MAJIED TAK	AC
80298	SHANDEEP BAL	INF
80299	ABHISHEK SAPAHIA	INF
80300	RAHUL YADAV	ARTY
80301	RAHUL SHARMA	AC
80302	RAVI KIRAN JAISWAL	INF
80303	ROHIN JUDE ROCQUE	MECH
80304	ANUJ RAJPUT	ARTY
80305	NAVNEET SINGH	AOC
80306	MAHENDER SINGH	INF
80307	PRADEEP KUMAR	ASC
80308	HEMANSHU ROHILLA	ENGRS
80309	VIKRAM PRATAP SINGH	EME
80310	MANOHER SINGH	ARTY
80311	DIPAK SINGH	INF
80312	RUSHIL DEV	SIGS
80313	ASHISH BADONI	ARTY
80314	MD FAZEEL KHAN	ARTY

IC No	Name	Arm/Services
80315	AMIT KUMAR	AOC
80317	SOURAV MISHRA	ARTY
80318	NAVEEN KUMAR	INF
80319	RINSHU KUMAR	INF
80320	LOKESH YADAV	AAD
80321	MIDHUN A S	AAD
80322	ANUJ CHHETRI	INT
80323	PARVESH KUMAR	ARTY
80324	PUSHPESH CHAND MAHOVIYA	INF
80325	TUSHAAR SHARMA	AC
80326	JITIN KUMAR	ARTY
80327	RAUNAQ IRFAAN	SIGS
80328	SATISH KUMAR	ASC
80329	RANDEEP SINGH	INF
80330	KULDEEP TEWARI	INF
80331	BENDHI KARTHIK REDDY	AVN
80332	ANKUR RAWAT	ARTY
80333	MANOJ KUMAR	ARTY
80334	APURVA CHATTERJEE	ASC
80336	DHANJIT KUMAR SINGH	EME
80337	AKSHAY GULERIA	INF
80338	NAVNEET SUMAN	AC
80339	DEEPAK MATHPAL	INF
80340	AKASH SINGH	AAD
80341	ANKIT LAKRA	INF
80342	PRANAY RAWAT	ENGRS
80343	HEMANT SINGH	INF
80344	SREERAJ S RAJEEV	AAD
80345	SANDEEP DUTTA	ARTY
80346	S ANDY SINGH	ARTY
80347	SAWAN KUMAR	INT
80348	SHAILENDRA SINGH KHAMPA	INF
80349	JAYDEEP NARAYAN JAGTAP	INF
80350	ANUB KUMAR KHATI	ARTY
80351	APOORV SINGHAL	ARTY
80352	VISHVENDRA KATARIA	INF
80353	KARAMAT ALI KHAN KHOKHAR	ASC
80354	BHUVAN UPADHYAY	MECH
80355	NARENDER KUMAR	INF
80356	RAVINDER JARAL	EME
80357	ARSHID HUSSAIN BHAT	INF
80358	GEORGE AUGUSTIN	INF
80359	DIKO KUMAR DAS	ARTY
80360	LOKESH SINGH TANWAR	ARTY
80361	SUNIL KUMAR BISHNOI	AOC
80362	SANDEEP SINGH	INF

IC No	Name	Arm/Services
80363	THANGMINGOU MATE	INF
80364	ATULBAL ANJANEY	INF
80365	BHAGWAN GI GHA	ARTY
80366	SUBHRANSHU SHRESHTHA	MECH
80367	HARPREET SAINI	AAD
80368	SONU KUMAR	ENGRS
80369	KANWAR KIRAT SINGH	AC
80370	PARMINDER SINGH	AC
80371	NAVDEEP MADRAH	SIGS
80372	PULKIT SINGH	INF
80373	PIYUSH BHATT	ENGRS
80374	SURESH SURAGANI	EME
80375	RISHABH KRISHAN	INF
80376	RAHUL KUMAR SINGH	AAD
80377	SWARAJ SINGH	INF
80378	KANISK MANN	AC
80379	MOHIT SONI	AOC
80380	SHETTY VISHWAM RAMESH	MECH
80381	AYUSH MALIK	AVN
80382	SUMIT KUMAR	ARTY
80383	TARIF SINGH	INF
80384	AASHISH KUMAR SINGH	ARTY
80385	SHRUTIMAAN SHUKLA	ASC
80386	ADITYA JAIN	ARTY
80387	MAHANTESH BASAVARAJ BARAGALI	ARTY
80388	PRABHAKAR KAJI	INF
80389	SHANTANU MISHRA	ENGRS
80390	MITHUN BINNY	ARTY
80391	VIKAS GOYAL	ASC
80392	RANJIT SINGH GHOTRA	ARTY
80393	PRINCE THOMAS	EME
80394	SACHIN	INF
80395	ABHISHEK CHAURE	ARTY
80396	RITESEN SEN	ARTY
80397	DEEPANSHU SHEORAN	AC
80398	SANJAY KUMAR KHANKA	INF
80399	RAJAT MAHAJAN	AAD
80400	ANSHUL DALAL	SIGS
80401	NEERAJ KHAJURIA	MECH
80402	ANKUSH CHANYAL	ENGRS
80403	SATYAM DWIVEDI	AOC
80404	ABHIMANYU BALI	INF
80406	DONDE PRATIK PRAKASH	INF
80408	SANKALP YADAV	ARTY
80409	DURGESH BHADURIYA	INF
80410	SREEJESH M	AOC

IC No	Name	Arm/Services
80411	Y L NARASIMHAN	INF
80412	ADARSH KUMAR	INF
80413	NITESH KUMAR SINGH	AVN
80414	YUMLAM JOSE	INF
80415	BHUBNESH MALHOTRA	ASC
80416	SHASHANK SHEKHAR	INT
80417	ANKIT RAI	INF
80418	NIROMAN SINGH	ARTY
80419	GAGANPREET SINGH	ARTY
80420	SAURABH WALIA	EME
80421	RAVINDRA RAY	ENGRS
80422	HARDEEP KUMAR	INF
80423	GAURAV	INF
80424	TEJ NARAYAN KUNWAR	INT
80425	LALREMRUATA RALTE	INF
80426	AMARDEEP SHARMA	INF
80427	DURGAPAL MAHESH KESHAVDUTT	AAD
80428	ADITYA PUNETHA	ARTY
80429	SIDDHARTH	ASC
80430	KARAMVIR SINGH	ARTY
80431	SHREYANSH AGARWAL	ASC
80432	ANUJ KUMAR	AAD
80433	BIKASH RAI	ASC
80434	RAHUL SHARMA	INF
80435	NILESH KUMAR PANDEY	ARTY
80436	VIVEK TYAGI	INF
80437	ABHISHEK SHARMA	ENGRS
80438	PAWAN SINGH DHAMI	EME
80439	AJAY YADAV	MECH
80440	BIRENDER SINGH	INF
80441	SHANTANU SINGH	ARTY
80442	VINEET JAKHMOLA	SIGS
80443	KARAN	AC
80444	SACHIN KUMAR RAI	ASC
80445	SAT PAL	AOC
80446	ANURAG SINGH	AC
80447	VIVEK PANWAR	ARTY
80448	ABDUL KARIM I	ARTY
80449	ISHAN SINGH	ARTY
80450	LAXMAN CHOUDHARY	INF
80451	SHABIR HUSSAIN	INF
80452	HIMANSHU SHEKHAR	ARTY
80453	SAHIL TONK	ARTY
80454	SURENDRA ARORA	ASC
80455	TOSHAN DWIVEDI	ASC
80456	DIWAKER SINGH SHAHI	INF

IC No	Name	Arm/Services
80457	SHEKHAR SANWAL	INF
80458	ARVIND	AOC
80459	HIMANSHU THAPA	ARTY
80460	HIMANSHU	ARTY
80461	LOKHANDE OMKAR GULABRAO	AAD
80462	DEEPAK KUMAR	EME
80463	DHOMNEY PRASHEEL PRAVIN	INF
80465	ABHISHEK RIKWAL	INF
80466	AMRIT KUMAR	INF
80467	ANJILICKAL ANNEL JOY	AVN
80468	VIKAS KHATRI	MECH
80469	SHESHANK CHAUHAN	ARTY
80470	RAJEEV KUMAR CM	AAD
80471	GADRE HRISHIKESH SHIRISH	INF
80472	KISHAN KUMAR GUPTA	ASC
80473	ABHIJIT BORUAH	ARTY
80474	SHUBHAM THAKUR	INF
80475	BHATT HARDIK PANKAJ	INF
80477	GAURAV PURKAYASTHA	AC
80478	AMANDEEP PATIYAL	INF
80479	BHAKTARAM GOUDA	ENGRS
80480	KUNDAN KUMAR CHANDAN	ARTY
80481	HARSHDEEP SINGH SUDAN	AC
80482	GAURAV PARMAR	AOC
80483	ADARSH CHOURSIYA	EME
80485	NAVNEET SINGH	INF
80486	KARAN SINGH	AOC
80487	K ASHOK KUMAR	INF
80488	ABHISHEK	ASC
80489	SHUBHAM SHANDILYA	ARTY
80490	KANAV SHARMA	AC
80491	RAHUL KUMAR	INF
80492	ABHINANDAN SUBHASH	AC
80493	HAGE KAPA	INF
80494	KISHAN THAKUR	INF
80495	AKASH NEGI	INF
80496	MITHUN GHOSH	AOC
80497	MAHESH INDRAJIT BIRAJDAR	ARTY
80498	ANSHUMAAN GANGELE	ARTY
80499	VIKASH KUMAR SONDLIA	EME
80500	PRABHAT UPADHYAY	ENGRS
80501	DEEPAK BHARDWAJ	AAD
80502	ANKUR RANA	ARTY
80503	PUNYANAND JHA	ARTY
80504	ANSHUL PANDEY	ARTY
80505	ABHISHEK SINGH	SIGS

IC No	Name	Arm/Services
80506	AJATSHTRU RAMPAL	INF
80507	RISHI PANDEY	ARTY
80508	SAHIL ARORA	INF
80509	RAMESH CHANDRA PATHAK	INF
80510	ADITYA DURGAPAL	ARTY
80511	SANDEEP KUMAR PANDEY	AAD
80512	SATISH KUMAR SHEKHAWAT	ASC
80513	HIMANSHU	MECH
80514	PRAVEEN YADAV	AC
80515	RAM SINGH PHARTYAL	ENGRS
80516	PARVEEN KUMAR DABAS	INF
80517	BHUPESH BAIRAGI	ASC
80518	VIKRANT CHAUHAN	AAD
80519	ABHEESHT DWIVEDI	EME
80520	VISHNU SINGH	INF
80521	KARANJEET SINGH JASPAL	AC
80522	BAHADUR SINGH	MECH
80524	SUKHPAL SINGH	MECH
80527	DEVANSH MEHTA	AVN
80528	RAVI RANA	INF
80529	BINU KUMAR B	ARTY
80530	RAJIV KUMAR	INF
80531	AMIT CHANDA	ARTY
80532	SANDEEP KUMAR	INF
80533	ANKIT NAIN	ARTY
80534	VIKAS HOODA	INT
80535	SANTHOSHKUMAR B	SIGS
80536	HRISHIKESH KUMAR	ARTY
80538	ABHIMANYU KUMAR	ARTY
80539	RAJNISH KUMAR	AOC
80540	NAIR MOHITH MOHANDAS	INF
80541	RAVISH UJJWAL	INF
80542	NAREN KUMAR D	ENGRS
80543	SHALABH SHARAD	AAD
80544	NAVEEN KUMAR	ASC
80545	SUMEET KUMAR JANA	ENGRS
80546	DIVANSHU AGARWAL	ASC
80547	SANJAY SINGH BAGHEL	AOC
80548	SHASHANK SHARMA	ENGRS
80549	AVINASH KUMAR	INF
80550	SOUMALLYA PAL	ARTY
80551	PILLAI MITHUN	ARTY
80552	ANURAG PAREEK	MECH
80554	ARJUN ARUN KUMAR	AC
80555	SATYENDRA KUMAR GIRI	ARTY
80556	PUSHPENDRA SINGH	AC

IC No	Name	Arm/Services
80557	VIJAY TOMAR	ARTY
80558	SHIVJEET SINGH	AOC
80559	NIKHIL JAMWAL	INF
80560	KAILASH MALIK	ASC
80561	UPADHYAY ARPITKUMAR MAHENDRA	EME
80562	KUMAR ABHIMANYU	ARTY
80563	VIVEK KUMAR	SIGS
80564	SONU YADAV	AAD
80565	PRAKASH CHANDRA MISHRA	ARTY
80566	VASANTA RANJAN	AOC
80567	S SHABBER BHASHA	INF
80568	ABHISHEK KATOCH	INF
80569	TANUJ PATHANIA	ARTY
80570	NEELABH KHATI	INF
80571	RAHUL SINGH GURJAR	INF
80572	SARVPRIYA SHARMA	INF
80574	PRATIK KUMAR BHATTACHARYA	AAD
80575	MENON VISHWAS PADMAPRASAD	INF
80576	SANDESH KURDEKAR	ARTY
80577	AKASHDEEP ATTRI	ENGRS
80578	AYUSH PHILLIPS	INF
80579	VINEET PALLAV	AOC
80580	HASAN KHAN	INF
80581	RISHI KUMAR YADAV	AAD
80582	NAMITESH DIXIT	INF
80583	KUNAL KUMAR	ARTY
80584	JASILUDHEEN N J	ASC
80585	VINEET FARTYAL	INF
80586	DIPESH SINGH	ARTY
80587	NARENDER KUMAR	INF
80588	ROBIN	ASC
80589	ANIKET PAWAR	ARTY
80590	YATIN BHARDWAJ	ARTY
80591	TANUJ GUPTA	INT
80592	AMBARISH NAFDE	AC
80593	OINAM KRISHNADAS SINGH	INF
80595	CHANAKYA KAUSHIK	ARTY
80596	AMIT KUMAR	AOC
80597	SANTOSH SINGH	INF
80599	KUMAR LALAN SINGH	ARTY
80600	ANKUR TOMAR	AAD
80602	ASEEM JAMWAL	INF
80603	MANGESH LAHANKAR	INF
80604	GAURAV MISHRA	AC
80605	VISHAL SOLANKI	INF
80606	RITURAJ MISHRA	MECH

IC No	Name	Arm/Services
80608	SHAREEF A	INF
80609	SHUBHAM SINGH	ENGRS
80610	RAHUL TIWARI	ARTY
80611	JIBIN PHILIP GEORGE	EME
80612	RANA BHARATI	ARTY
80613	DHANANJAY SINGH HOODA	AC
80614	RITURAJ SINGH RAWAT	SIGS
80615	SOUMYA SAKET	ASC
80616	JEREMIAH SAMUEL	ARTY
80617	SUBHAM MANDAL	MECH
80618	ANUP YADAV	INF
80619	SHAILENDRA SINGH	INF
80620	ANAND VIKRAM SINGH	AAD
80621	SHANTANU GHATPANDE	INF
80622	PRAVEEN KUMAR	INF
80623	MANOJ KATYAL	ARTY
80624	NEERAJ KUMAR SHARMA	ARTY
80625	PARAG SHAROTRI	INF
80626	MUKESH KUMAR GULSHAN	AOC
80627	ABHISHEK DUBEY	ENGRS
80628	SARVAPRIYA AMAN	ARTY
80629	DEEPANSHU RAJ	AAD
80630	ABHIJITH SYAM	ARTY
80631	AKASH THAPA	AC
80632	KATURU KARTHIK	ASC
80633	TUSHAR SHARMA	INF
80634	KUNAL S NAIR	ASC
80635	SANDEEP GUPTA	MECH
80636	PANKAJ KUMAR ATTRI	ENGRS
80637	ABHINAV KUMAR SINHA	ENGRS
80638	VISHAL THAPA	INF
80639	SWATANTER	ENGRS
80640	VIKASH CHANDRA PANDEY	ARTY
80641	TARUN KUMAR	AAD
80642	VISHAL RANA	EME
80643	SHIV KUMAR	ENGRS
80644	VIBHANSHU VASHISHTHA	SIGS
80645	NITESH KUMAR	ENGRS
80646	VINAYAK CHOUBEY	ARTY
80647	AMIT DESWAL	INF
80648	NIPUNN DUMRA	AC
80649	DEEPAK JAYBHAY	ENGRS
80650	PRADEEP KUMAR	EME
80651	AMAN ABBHI	ARTY
80652	PUSHPENDRA YADAV	SIGS
80653	DEEPAK KUMAR	EME

IC No	Name	Arm/Services
80654	SANDEEP MISHRA	EME
80655	PRADEEP SINGH CHAHAL	ENGRS
80656	TARANJEET SINGH	INF
80657	ABHIMANYU SHARMA	INF
80658	NISHANT VERMA	EME
80659	SURYA PRATAP SINGH MANKOTIA	INF
80660	TARUN KUMAR GERA	ENGRS
80661	PRABHAT KUMAR SHUKLA	ENGRS
80662	YASHVINDER	EME
80663	RANDHIR KUMAR	EME
80664	ANKIT CHOUDHARY	ENGRS
80665	MAHESH PAWAR	ENGRS
80666	SHUBHANGU BHARDWAJ	EME
80667	SAURABH SRIVASTAVA	INF
80668	BHOOPENDRA SINGH	SIGS
80669	MOHAMMAD NAVAID	EME
80670	DHRUVAL VARSHNEY	EME
80671	ARUN KUMAR	EME
80672	KESHAV KUMAR	EME
80673	ABHISHEK CHANDOLA	SIGS
80674	MAMOON AL RASHID	SIGS
80675	HARSH VARDHAN DALAL	SIGS
80676	RAHUL KUMAR VERMA	SIGS
80677	BONAM RAVI KUMAR	ARTY
80678	RAKESH RANA	ENGRS
80679	ASHUTOSH SARAWGI	EME
80680	ABHISHEK SINGH BHADAURIA	AAD
80681	AMAN YADAV	EME
80682	LOVEPREET SINGH	INF
80683	HEMENDRA SINGH	ARTY
80684	LALIT KUMAR SHARMA	ENGRS
80685	MUKUL KUMAR CHHOKAR	SIGS
80686	RAVI SHOKEEN	SIGS
80687	SATENDRA PRATAP SINGH	EME
80688	AMIT PANDEY	EME
80689	GIRIJESH	ENGRS
80690	ADITYA SOMBANSI	INF
80691	ABHISHEK BISWAS	SIGS
80692	ROHIT KUMAR	EME
80693	VARUN UDAY PISOLKAR	ENGRS
80694	ANKIT GUPTA	SIGS
80695	SUNIL KUMAR	EME
80696	VIKRAM JADHAV V	ENGRS
80697	ROSHAN KUMAR DUTTA	SIGS
80698	ROHIT VERMA	ENGRS
80699	ASHISH SHUKLA	EME

IC No	Name	Arm/Services
80700	AYUSH GANDHRA	MECH
80701	DHARMENDRA SINGH	ENGRS
80702	RAJDEEP SINGH	EME
80703	RAHUL KUMAR	ENGRS
80704	TEEKAM SINGH	SIGS
80705	RAVI NARAYAN UPADHYAY	EME
80706	RNG JOSEPH ANAL	SIGS
80707	SUYASH CHITRANSH	INF
80708	REJI G K	ENGRS
80709	SAMRAT	ENGRS
80710	VEDANT DHYANI	ARTY
80711	AKHAND PRATAP SINGH	ENGRS
80712	CHETAN THAKUR	ENGRS
80713	NILAY BISWAS	EME
80714	VARAN GUPTA	INF
80715	AYUSH KUMAR SINGH	SIGS
80716	VISHVENDER	ENGRS
80717	R JYOTIRAJ REDDY	EME
80718	KUMAR VINAYAK	ARTY
80719	SIDDHARTH RATHEE	ENGRS
80720	KUNAL VARMA	INF
80721	NAVDEEP SINGH	INF
80722	GAURAV KUMAR SINGH	ARTY
80723	SAHIL KUMAR	ENGRS
80724	KARAN MEHLA	MECH
80725	VISHESH TIWARI	AC
80726	SHAILENDRA SINGH	INF
80727	SANDEEP KUMAR SAINI	EME
80728	ASHISH KUMAR	SIGS
80729	VIVEK SHUKLA	SIGS
80730	LEO MATHEWS	INF
80731	CHIVUKULA SAI SUMEDH	ENGRS
80732	BHAGAT SINGH RAGHAV	ENGRS
80733	SUDHIR KUMAR	ENGRS
80734	SHIVANSH KAUSHIK	EME
80735	VIKAS SIWACH	AC
80736	PRASHANT KUMAR MISHRA	ARTY
80737	ANUPAM MISHRA	ENGRS
80738	AKHILESH KUMAR SINGH	EME
80739	GAURAV KUMAR YADAV	EME
80740	JATIN SHARMA	EME
80885	ROHAN KHATRI	AEC
80895	AMRITH KUMAR N	AEC

CAPT TO BE MAJ

IC NO	NAME	ARM	DATE OF SUBS MAJ
70339	VAIBHAV SINGH	INF	07 JUN 2014
73195	ANAND A SHIRALI	INF	17 OCT 2013

ABHISHEK TEWARY

Lt Col
AMS 8B

No. 242, dated 6th October 2017—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION (SPECIAL COMMISSION)
LIEUTENANT TO BE CAPTAIN

SC No	Name	Arm/Service
00891	SHAKTI SINGH SHEKHAWAT	AOC
00892	PATIL RATISH RAMESH	ARTY
00893	MANOJ KUMAR	MECH INF
00894	HEMANT KUMAR SHARMA	INF
00895	JODHVIR SINGH	ASC
00896	SANDEEP	AC
00897	PRAWAL DEKA	SIGS
00898	DIPENDER SINGH RATHORE	INF
00899	VINOD KUMAR	EME
00900	AMIT KUMAR	AAD
00901	SANJAY KUMAR	EME
00902	KEDAR SINGH NEGI	INF
00903	DEVRAJ KUMAR	EME
00904	S RAJASHEKAR REDDY	AAD
00905	RAJENDRA PRASAD JAT	INF
00906	KAMAN BAHADUR THAPA	SIGS
00907	MANORANJAN NAYAK	ASC
00908	ANAND CS	ARTY
00909	RAJESH KUMAR GR	INF
00910	SHIVWINDER SINGH	AOC
00911	TRIPATHI SURESH KUMAR RAMGOPAL	ARTY
00912	A S SONGACHAN ZIMIK	SIGS
00913	SUDHIR PATRO	ARTY
00914	RAKESH KUMAR SAINI	INF
00915	KIRAN KUMAR PITTAMALLA	ENGRS
00916	KONJENBAM SOMOKANTA SINGH	ENGRS
00917	NIKHIL S	INF
00918	ANUP KUMAR	ENGRS
00919	SHAKTI SINGH	ARTY
00920	BINEESH PK	ARTY
00921	GULAB SINGH	EME
00922	MD ZAFFAR KHAN	ARTY
00923	SHAKTI SAWAN CHHETRI	INF

SC No	Name	Arm/Service
00924	SANTOSH SHARMA	INF
00925	HARISH KUMAR	INF
00926	PANKAJ CHANDEL	ENGRS
00927	VIPIN SINGH GAIRA	ENGRS
00928	PISAL ATISH VASANTRAO	ARTY
00929	AJITH KUMAR J	INF
00930	RESHAM KUMAR PUN	MECH INF
00931	AJIT KUMAR	SIGS
00932	JAGZAP ANAND UTTAM	AOC
00933	CHANDRA SHEKHAR V	INT
00934	SURINDER SINGH DHANKHAR	ASC
00935	K MOHAMMED ASIF	AC
00936	KUMAR JAYENDRA	EME
00937	SACHIN KUMAR	INF
00938	KARAMUNGE YOGESH NARAYAN	ENGRS

— 13 JUNE 2017 —

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
LIEUTENANT TO BE CAPTAIN

IC No	Name	Arm/Service
82013	AVIJIT HAZRA CHOWDHURY	ENGRS
82014	AMIT SABHARWAL	ASC
82015	GAURAV SINGH CHUPHAL	EME
82016	ANIRUDH SINGH	ENGRS
82017	ANIRUDH JOSHI	INF
82018	SUBHONKAR MUKHERJEE	INF
82019	VAIBHAV KUKRETI	SIGS
82021	AYUSH KAJLA	MECH INF
82022	SIVARAMAKRISHNAN L	INF
82023	DEEKSHITH MP	INF
82024	KAPIL SHAH	AVN
82025	NIRVAN SINGH	SIGS
82028	DIPESH TOMAR	AC
82029	ADHIRAJ SINGH RATHORE	ENGRS
82030	ANKIT SHARMA	INF
82031	PARTH DEO	ENGRS
82033	ROHIT MEHRA	AAD
82035	KUNAL	ASC
82036	MUNGEE SHUBHAM SANJAY	ARTY
82038	GAURAV KHER	INF
82040	PANKAJ KUMAR	EME
82041	AJAY PRATAP SINGH	ARTY
82042	SANCHIT SHARMA	MECH
82043	KUNAL SHARMA	EME
82046	PANKAJ KUMAR	ARTY
82047	ABHIJEET RANA	INF

IC No	Name	Arm/Service
82048	SHARATH MANO	EME
82050	PRATEEK GUPTA	ARTY
82051	DIGVIJAY YADAV	EME
82052	SALUNKHE AJINKYA ASHOK	INF
82053	SIDDHARTHA CHAKRABORTY	ENGRS
82055	ANURAG DWIVEDI	ENGRS
82056	ANKIT KUMAR JHA	ARTY
82057	INDERPREET SINGH RANDHAWA	INF
82059	MELWIN SHAJI	ENGRS
82061	PRABHU C	EME
82062	WAKCHAURE ANIKET PANDURANG	AAD
82063	GAURAV KUMAR	INF
82064	SAIF AHMED FAROOQUEE	SIGS
82065	VIVEK KUMAR CHOUBEY	EME
82067	SYED ATHAR PARVEZ	ARTY
82068	SAKSHAM SHARMA	ENGRS
82069	SATISH MISHRA	ENGRS
82070	AKASH TYAGI	ARTY
82073	VANSH SOOD	ENGRS
82074	AJAY SINGH NEGI	ENGRS
82078	NISHANTH SHYAM SUNDER	SIGS
82079	NARENDRA SINGH NEGI	INF
82080	ANKIT SINGH BANI	ARTY
82082	YASHWANT MITHARWAL	SIGS
82083	AJIT KUMAR SINGH	SIGS
82084	CHINTHAKAYALA SATISH	ENGRS
82085	RAJAN KAPOOR	ENGRS
82086	SURAJ SINGH	INF
82088	GAURAV KUMAR	SIGS
82089	PRATIK KUMAR PANDEY	AVN
82092	PATIL KESHAV VILAS	ENGRS
82093	BHAVESH PURI	ARTY
82094	ANKUR SINGH	AOC
82095	AKHIL KUMAR	INF
82096	ASHUTOSH SHARMA	ENGRS
82097	JASPREET SINGH	SIGS
82099	ABHISHEK CHAUDHARY	AOC
82100	PUNARVASU MAIRAL	INF
82101	KSHITIJ MAAN	SIGS
82102	VINEET KUMAR	INF
82103	NAVEEN GK	AC
82104	SUDEEP JOY JOSEPH	ENGRS
82105	AKSHAY DAHIYA	ENGRS
82106	ANKUR TIWARI	ENGRS
82108	ANKIT PALIA	AOC
82109	R VIGNESH SHANKAR	ENGRS
82110	AYUSH NAGPAL	MECH
82111	AKASH GUPTA	ENGRS
82113	RAHUL SINGH	ASC

IC No	Name	Arm/Service
82114	PRASIDH NAIK	ARTY
82115	ANKIT LATHAR	SIGS
82116	CHAITANYA KESHAV SHARMA	EME
82117	PUSHPIT BHULLAR	EME
82118	VINAY KUMAR	ARTY
82119	SHEKHAR SINGH RAWAT	ENGRS
82120	RAJEEV PANDEY	ASC
82121	BHARATH S	ARTY
82122	ABHISHEK RAWAT	INF
82123	ABHINAV VATSA	ARTY
82124	GURSIMRAN SINGH KALEKA	AC
82126	SHALEEN KUMAR	ENGRS
82127	AKHIL RADHAKRISHNAN	EME
82128	JEPHIN JOSE	SIGS
82129	AVANEESH KUMAR SINGH	AVN
82130	ANKIT VATSA	EME
82131	AMRIT SAGAR	ENGRS
82132	PARVEEN KUMAR	AC
82133	ANANYA V	EME
82135	C ARJUN	AAD
82136	SWAPNIL SINGH RAWAT	INT
82139	NIRNAY NATH	INF
82142	KUNAL MEHTA	INF
82143	AMIT KUMAR SINGH	INF
82145	AVIRAJ SHEKHAWAT	SIGS
82146	SHUBHAM SOOD	ENGRS
82147	RAMSWAROOP	ASC
82148	MALLIKARJUN ASV	EME
82149	ARJUN SINGH	INF
82150	VAIBHAV TIWARI	INT
82151	ABHINANDAN TYAGI	ASC
82152	RAVI KUSH	ENGRS

— 14 JUNE 2017 —

MP SHARMA
Deputy Director
MS-8C

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF— [PART I—SEC. 4]

LAZAR
SAGAYA
RAJ

Digitally signed
by LAZAR
SAGAYA RAJ
Date: 2017.11.11
10:56:24 +05'30'